

**MPPSC – STATE FOREST
SERVICE 2020**

MAINS

TESTSERIES

PAPER-I PART-

A

UNIT-3: POLITICS AND ECONOMY OF MP

1. In which year, Sikkim become a part of India
 - (a) 1972
 - (b) 1975
 - (c) 1977
 - (d) 1980
2. The Union Public Service Commission of India has been established under the Article
 - (a) Article 122
 - (b) Article 178
 - (c) Article 272
 - (d) Article 315
3. The National Human Rights Commission is formed in the year
 - (a) 1990
 - (b) 1993
 - (c) 1995
 - (d) 1997
4. The National Human Rights Commission is a
 - (a) Autonomous Public Body
 - (b) Constitutional Body
 - (c) Extra Constitutional Body
 - (d) None of the above
5. Who can be the Chair person of National Human Rights Commission
 - (a) Chief Justice of Supreme Court
 - (b) Judge of Supreme Court
 - (c) Chief Justice of High Court
 - (d) Member of Lok Sabha
6. Who is the nominator for Comptroller and Auditor General of India
 - (a) President of India
 - (b) Vice-President of India
 - (c) Prime Minister of India
 - (d) Chief Justice of India
7. Who was the first Comptroller and Auditor General of India
 - (a) AK Chandra
 - (b) AK Roy
 - (c) S Ranganathan
 - (d) V Narahari Rao
8. The maximum number of Public Accounts Committee (PAC) can be
 - (a) 10
 - (b) 12
 - (c) 22
 - (d) 25
9. The chairman of Public Accounts Committee (PAC) is appointed by
 - (a) Speaker of Lok Sabha
 - (b) President
 - (c) Chief Justice
 - (d) Speaker of Rajya Sabha
10. Which one is the 28th State of India
 - (a) Uttarakhand
 - (b) Goa
 - (c) Jharkhand
 - (d) Chhattisgarh
11. A money bill in parliament can be introduce with the recommendation of
 - (a) Prime Minister
 - (b) President
 - (c) Speaker of Lok Sabha
 - (d) Finance Minister
12. Who was the only Lok Sabha Speaker to have become the President of India
 - (a) VV Giri
 - (b) Zail Singh
 - (c) Neelam Sanjiva Reddy
 - (d) S Radhakrishnan
13. The state of emergency in India was declared in the year
 - (a) 1972
 - (b) 1973
 - (c) 1975
 - (d) 1977
14. Who was the Prime Minister of India when emergency was declared
 - (a) Rajiv Gandhi
 - (b) Indira Gandhi
 - (c) Morarji Desai
 - (d) Charan Singh
15. The Emergency in India in 1975 was applied under the article
 - (a) 375
 - (b) 242
 - (c) 320
 - (d) 352
16. India's 'Look East Policy' was started by the Prime Minister
 - (a) Rajib Gandhi
 - (b) PV Narasimha Rao
 - (c) Atal Bihari Vajpayee
 - (d) Manmohan Singh
17. Which of the following article constitute the "Right to Life" in Indian

Constitution

- (a) Article 16
- (b) Article 21
- (c) Article 26
- (d) Article 36

18. The constitution of India can be amended by

- (a) Article 256
- (b) Article 324
- (c) Article 352
- (d) Article 368

19. The 12th Schedule of the India Constitution defines _____ new tasks in the functional domain of the Urban Local Bodies (Municipalities)

- (a) 12
- (b) 14
- (c) 16
- (d) 18

20. From which country has the Directive Principles of State Policy been adopted

- (a) England
- (b) USA
- (c) Ireland
- (d) Germany

21. Which state is not included in the Sixth Schedule to the Constitution which contains provisions concerning the administration of tribal areas

- (a) Assam
- (b) Meghalaya
- (c) Tripura
- (d) Nagaland

22. Which of the following is an extra-constitutional body

- (a) Planning Commission
- (b) SC and ST Commission
- (c) Finance Commission
- (d) Inter-State Council

23. Which of the following committee recommended for Panchayati Raj System in India?

- (a) Punchhi Samiti
- (b) Balwantrai Mehta Committee
- (c) Singhvi Committee
- (d) None of the following

24. How many tiers are in the Panchayati Raj system of India?

- (a) One-tier
- (b) Two-tier

(c) Three-tier

(d) Four-tier

25. Which of the following system is established on the basis of the direct election?

- (a) Gram Panchayat
- (b) Block Committee
- (c) Zila Parishad
- (d) Both b and c

26. Which of the following statements is not correct?

- (a) Panchayati Raj was established in India by Jawahar Lal Nehru
- (b) Madhya Pradesh was the first state which implemented The Panchayati Raj system in India

(c) 73rd Constitutional amendment was implemented in 1992

(d) Tamil Nadu has adopted the bicameral method

27. Which of the following Article is related to Panchayati Raj?

- (a) Article 243
- (b) Article 324
- (c) Article 124
- (d) Article 73

28. What was the main purpose behind bringing the Panchayati Raj system in India?

- (a) To Prevent criminalization of politics
- (b) Development of villages
- (c) Decentralisation of the political power to the general peoples
- (d) To reduce election expenses

29. Which schedule was added to the constitution by the 73rd Constitutional Amendment?

- (a) 6th
- (b) 7th
- (c) 9th
- (d) 11th

30. Which statement is not correct regarding "Gram Sabha"?

- (a) It is a body consisting of persons registered in the electoral rolls of a village comprised within the area of the Panchayat level.
- (b) It is a village assembly consisting of all the registered voters in the area of the Panchayat.

(c) Its powers have been determined by the Central Government

(d) Its powers and functions at the village level are like state legislature at the state level.

31. Which statement is true about Panchayat Raj?

(a) The Panchayat Samiti and Zila Parishad should be constituted with directly elected members.

(b) Minimum age should be 18 years to contest the election at the panchayat level

(c) Election of the Panchayati Raj institutions is conducted under the guidance of the State Election Commission.

(d) For the financial review of Panchayats, the state Finance Commission is established after 6 years

32. How many posts are reserved for women at all levels in the Panchayati raj system.

(a) 1/3

(b) 1/2

(c) 2/3

(d) 1/4

33. Harshod (Gypsum) is found in which of the following districts?

(A) Jabalpur (B) Rewa (C) Sagar (D) Gwalior

34. To which the Cabinet of Madhya Pradesh is responsible?

(A) To the Governor (B) To the Chief Minister (C) To the Vidhan Sabha (D) None of the above

35. For the development of minerals in Madhya Pradesh in which of the following year Madhya Pradesh minerals development corporation has been established?

(A) 1952 (B) 1962 (C) 1956 (D) 1968

36. Which among the following places are famous for white lion ?

(A) Malwa (B) Chhattisgarh (C) Baghelkhand (D) None of these

37. Where Intima religious convention is held in Madhya Pradesh ?

(A) Jawara (B) Indore (C) Gwalior (D) Bhopal

38. As per population of 2011. What is the sex-ratio in Madhya Pradesh ?

(A) 929 female per 1000 male (B) 941 female per 1000 male

(C) 934 female per 1000 male (D) 931 female per 1000 male

39. As per Census 2011, density of population in Madhya Pradesh is—

(A) 155 persons per km² (B) 188 persons per km² (C) 236 persons per km² (D) 172 persons per km²

40. As per 2011 Census of Madhya Pradesh what is the percentage of literacy among female as well as male?

(A) Male 78.7% female 59.2% (B) Male 48.4% female 18.9%

(C) Male 48.41 % female 28.39% (D) Male 57.43% female 18.99%

41. When state of Madhya Pradesh was formed?

(A) 15 Aug., 1947 (B) 26 Jan., 1950 (C) 1 Nov., 1956 (D) 1 Jan., 1960

42. As per 2011 census of Madhya Pradesh the total Rural population is—

(A) 37,612,920 (B) 52,537,899 (C) 20,059,666 (D) 34,984,645

43. Where the news print paper factory is situated in Madhya Pradesh ?

(A) Nepa Nagar (B) Punasa (C) Hoshangabad (D) None of these

44. At present who is the Governor of Madhya Pradesh State?

(A) Kunwar Mahmood Ali (B) Magnu bhai Patel (C) Ramesh Bhandari (D) P. C. Alexander

45. Which type of tree is maximum found in Madhya Pradesh ?

(A) Sal (B) Shisham (C) Sagon (D) Mango

46. Which one of the following city is situated in Chambal Valley?

(A) Mau (B) Morena (C) Bhind (D) Ratlarn

47. Main Cotton producing zone of Madhya Pradesh is—

(A) Western Madhya Pradesh (B) Northern Madhya Pradesh

(C) Eastern Madhya Pradesh (D) None of the above

48. What is the definition of sex ratio?

- (a) Number of deaths per 1,000 live births of children
 (b) Number of women per 1000 men
 (c) Number of women per 100000 men
 (d) Number of men per 1000 women
49. What does infant mortality mean?
 (a) The number of deaths per 1,000 live births of children under 1 year of age
 (b) Death of children under the age of 5 years
 (c) Death of children before the age of 6 months
 (d) Death of children under the age of 3 years
50. Which age group is included to calculate Child Sex Ratio?
 (a) 1-6 years
 (b) 0-5 years
 (c) 0-6 years
 (d) 0- 6 months
51. Which statement is NOT correct in respect to Child Sex Ratio?
 (a) Arunachal Pradesh has the highest sex ratio in all states of India
 (b) Kerala has the highest sex ratio in all states of India
 (c) Haryana has the lowest sex ratio in all states of India
 (d) Child sex ratio has decreased in 2011 as compared to 2001 census
52. What is the Maternal Mortality Rate?
 (a) Women's death occurred before 9th month of pregnancy
 (b) The annual number of female deaths per 100,000 live births due to pregnancy.
 (c) The death of women occurred within 2 year of childbirth
 (d) None of the above
53. What is the correct descending order on the basis of the number of sex ratio in the states?
 (a) Kerala <Chhattisgarh <Mizoram <Andhra Pradesh
 (b) Arunachal Pradesh <Kerala <Manipur <Meghalaya
 (c) Meghalaya <Kerala << Chhattisgarh <Tamilnadu
 (d) Kerala <Tamil Nadu <Andhra Pradesh <Chhattisgarh
54. According to Census 2011, how much was the Total Fertility Rate (TFR) in India?
 (a) 2.1
 (b) 2.3
 (c) 2.4
 (d) 2.0
55. Which of the following statements is NOT true with reference to the Total Fertility Rate (TFR)?
 (a) The number of children born in the entire reproduction period of a woman is called the Total Fertility Rate of that female
 (b) Bihar has the highest "Total Fertility Rate" of 3.3 among Indian state
 (c) The Total Fertility Rate (TFR) of West Bengal, Tamil Nadu and Delhi is equal
 (d) In India Buddhism has the lowest "Total Fertility Rate".
56. According to the latest data released by the NITI Aayog in 2016; What is the Infant Mortality Rate in India in 2016?
 (a) 42 per 1000 live births
 (b) 34 per 1000 live births
 (c) 29 per 1000 live births
 (d) 54 per 1000 live births
57. Which states of India have the lowest and highest Infant Mortality Rate respectively?
 (a) Kerala, Bihar
 (b) Odisha, Jharkhand
 (c) Goa, Madhya Pradesh
 (d) Maharashtra, Uttar Pradesh
58. How many International Airports are present in Madhya Pradesh?
 [A] 0
 [B] 1
 [C] 2
 [D] 3
59. Prime Minister Narendra Modi has launched the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan in which district of Madhya Pradesh?
 [A] Jabalpur
 [B] Gwalior
 [C] Mandla
 [D] Indore

60. Dr. Nirmal Hirawat, the former Madhya Pradesh minister has passed away. She was associated with which political party?

- [A] Indian National Congress
- [B] Bharatiya Janata Party
- [C] Bahujan Samaj Party
- [D] Nationalist Congress Party

61. The Madhya Pradesh government has recently inaugurated the 250MW NTPC Solar Power Plant in which district?

- [A] Panna
- [B] Mandsaur
- [C] Indore
- [D] Jabalpur

62. Regarding distribution of the Scheduled Tribe Population in India, consider the following statements:

1. Among states and Union territories, the maximum share of tribal population in total population is of Madhya Pradesh
2. Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Odisha account for more than half of total tribal population of India
3. There are no scheduled tribes in Punjab and Haryana. Which among the above is / are correct statements?

- [A] Only 1 & 2
- [B] Only 2 & 3
- [C] Only 1 & 3
- [D] 1, 2 & 3

63. With reference to Pulse production in India, consider the following statements:

1. India is world's largest producer, consumer as well as importer of the pulses
2. The Most produced pulse of India is Chick Pea
3. The top pulse producing state of India is Madhya Pradesh

Which among the above is / are correct statements?

- [A] Only 1 & 2
- [B] Only 2 & 3
- [C] Only 1 & 3
- [D] 1, 2 & 3

64. With reference to cultivation of Cotton in India, which among the following statements is / are correct?

1. Approximately 65% of India's cotton is produced on rainfed areas
2. Majority of the cotton is produced in

central zone comprising Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat

Choose the correct option from the codes given below:

- [A] Only 1
- [B] Only 2
- [C] Both 1 & 2
- [D] Neither 1 nor 2

65. India has signed how much amount of loan agreement with World Bank to improve rural road network in Madhya Pradesh?

- [A] \$220 million
- [B] \$210 million
- [C] \$230 million
- [D] \$240 million

66. The Central Government has launched the Mohanpura Irrigation Project in which district of Madhya Pradesh?

- [A] Rajgarh
- [B] Bhopal
- [C] Indore
- [D] Jabalpur

67. The Ranoh waterfall is located on which river in Madhya Pradesh?

- [A] Kali Sindh
- [B] Narmada
- [C] Ken
- [D] Tapi

68. Consider the following pairs of Waterfalls with States where they are located:

1. Pandavkada – Maharashtra
2. Ranoh – Madhya Pradesh
3. Duduma – Odisha

Which of the above is/are correct?

- [A] 2 & 3 Only
- [B] 3 Only
- [C] 2 Only
- [D] 1, 2 & 3

69. Consider the following matches of GI protected Products and their respective states:

1. Muga Silk – Assam
2. Thewa Art – Rajasthan
3. Shaphee Lanphee – Nagaland
4. Bastar Dhokra – Madhya Pradesh

Which among the above is / are correct matches:

- [A] 1 Only
- [B] 1 & 2 Only
- [C] 1, 2 & 3 Only
- [D] 1, 2, 3 & 4

70. Consider the following National Parks with states where they are located:

1. Rani Jhansi Marine National Park – Madhya Pradesh
 2. Balpakram National Park – Karnataka
 3. Valley of Flowers National Park – Kerala
- Which of the above is/are correct?

- [A] 1 Only
- [B] 1 & 3 Only
- [C] 1, 2 & 3
- [D] None

71. Consider the following statements about India State of Forest Report (ISFR) 2017:

1. It shows that the Forest and Tree Cover of the country has increased by 1.5% compared to assessment of 2015
 2. As per the report, forest cover has increased maximum in Madhya Pradesh
- Which of the above statements is/are correct?

- [A] 1 Only
- [B] 2 Only
- [C] Both 1 & 2
- [D] Neither 1 nor 2

72. India's first private sector small arms manufacturing plant has been recently inaugurated in Madhya Pradesh. It is a joint venture between India and _?

- [A] Russia
- [B] Israel
- [C] France
- [D] U.S.A

73. Consider the following statements as per recent reports under Sample Registration System:

1. India has shown a consistent decline in infant mortality rate in between 1990 to 2015
 2. Madhya Pradesh has the highest infant mortality rate in India
- Which of the above statements is/are correct?

- [A] 1 Only
- [B] 2 Only

- [C] Both 1 & 2
- [D] Neither 1 nor 2

74. Consider the following multipurpose projects with states associated to them:

1. Bansagar- Uttar Pradesh & Madhya Pradesh
 2. Rajghat- Madhya Pradesh & Maharashtra
 3. Mayurakshi- Jharkhand & West Bengal
- Which of the above is/are correct?

- [A] 1 & 3 Only
- [B] 1 Only
- [C] 2 & 3 Only
- [D] 1, 2 & 3

75. World Bank has approved the funding for the "Ecosystem Services Improvement Project". This project aims to improve forest quality, land management and non-timber forest produce (NTFP) such as nuts, mushrooms, and game animals to benefit forest-dependent communities. The project is being implemented across which of the following states in India?

1. Madhya Pradesh
2. Chhattisgarh
3. Odisha

Select the correct option from codes given below:

- [A] 1 & 2 Only
- [B] 2 & 3 Only
- [C] 1, 2 & 3
- [D] None

76. India has signed \$375 million loan agreement with which International organisation to improve irrigation in Madhya Pradesh?

- [A] ADB
- [B] AIIB
- [C] World Bank
- [D] IMF

77. Which of the following cities is the principal seat of the Madhya Pradesh High Court?

- [A] Gwalior
- [B] Bhopal
- [C] Indore
- [D] Jabalpur

78. Which wildlife sanctuary has been declared as National Park by the Madhya Pradesh government?

[A] Bori Wildlife Sanctuary
 [B] Kuno Wildlife Sanctuary
 [C] Nauradehi Wildlife Sanctuary
 [D] Kheoni Sanctuary
 79. Who has been appointed as chairman of the 'Ma Narmada, Ma Kshipraevam Ma Mandakini River Trust' in Madhya Pradesh?

- [A] Aditya Joshi
 [B] Madhusudan Patidar
 [C] Varsha Varman
 [D] Namdev Tyagi

80. India's first cow sanctuary is located in which district of Madhya Pradesh?

- [A] Neemuch
 [B] Agar Malwa
 [C] Mandsaur
 [D] Ujjain

81. From which city, the first-ever international commercial flight from Madhya Pradesh has launched?

- [A] Indore
 [B] Bhopal
 [C] Jabalpur
 [D] Gwalior

82. The New Development Bank (NDB) has approved how much amount of loan to Madhya Pradesh for infrastructure projects?

- [A] \$625-million
 [B] \$725-million
 [C] \$525-million
 [D] \$425-million

83. Recently, it was in news that the Tigress Avni or T1 has been declared as man eater. Consider the following statements related to this:

1. The power to declare a tiger as man eater is vested with union ministry of environment and forests.
2. Only deliberate attacks on humans will be considered for declaring the tiger as a man eater.
3. The habitat of the Avni is Yavatmal forest range of Madhya Pradesh.

Which of the above is / are correct statements?

- [A] Only 1 & 2
 [B] Only 2

- [C] Only 2 & 3
 [D] 1, 2 & 3

84. In Madhya Pradesh, women will handle the entire work of counting votes in which of the following districts?

- [A] Jabalpur
 [B] Indore
 [C] Harda
 [D] Burhanpur

85. Which site of Madhya Pradesh has been included in the tentative list of UNESCO World heritage sites?

- [A] Maheswar
 [B] Orchha
 [C] Ujjain
 [D] Khandwa

86. From which city, the first-ever international commercial flight from Madhya Pradesh has launched?

- [A] Indore
 [B] Bhopal
 [C] Jabalpur
 [D] Gwalior

87. Under Digital India campaign, the Banjari village of which district of Madhya Pradesh has become an integral part of the digital map of the country?

- [A] Katni
 [B] Jabalpur
 [C] Chhindwara
 [D] Gwalior

88. Match List I with List II and select the correct answer using the codes given below the lists:

List I	List II
(Agricultural products)	(Foremost producer)
I. Cotton	(A) Madhya Pradesh
II. Gram	(B) Gujarat
III. Black pepper	(C) West Bengal
IV. Pineapple	(D) Kerala

Codes:

- [A] I-B, II-A, III-D, IV-C
 [B] I-B, II-A, III-C, IV-D

[C] I-A, II-B, III-D, IV-C

[D] I-A, II-B, III-C, IV-D

89. Madhya Pradesh is set to invoke the National Security Act against milk adulterators in the state. Consider the following statements about the act:

1. NSA allows preventive detention for a period of 6 months both by the centre and state governments
2. Enacted in 1980, this is the first preventive detention law in India.
3. NCRB records show that 14 lakh people are held under preventive laws.

Select the correct option from the codes given below:

[A] Only 1

[B] None of the above

[C] All of the above

[D] 1 and 3

90. Who took oath as the Chief Minister of Madhya Pradesh for the fourth time, after the Chief Minister Kamal Nath resigned?

[A] Vinay Sahastrabudhe

[B] Shivraj Singh Chauhan

[C] Gopal Bhargava

[D] Arun Singh

91. The 73rd Constitutional Amendment Act does not apply to which of the following states?

1. Nagaland

2. Meghalaya

3. Mizoram

4. Madhya Pradesh

Select the correct option from the codes given below:

[A] Only 1 & 2

[B] Only 2 & 3

[C] Only 1, 2 & 3

[D] 1, 2, 3 & 4

92. Which among the following matches of regions and their states are correct?

1. Baghelkhand- Madhya Pradesh

2. Kuttanad- Kerala

3. Rarh- West Bengal

4. Saurashtra- Gujarat

Choose the correct option from the codes given below :

[A] 1 & 2

[B] 1 & 4

[C] 2 & 4

[D] 1, 2, 3 & 4

93. Dandakaranya lies in which of the following states of India?

1. Odisha

2. Chattisgarh

3. Andhra Pradesh

4. Madhya Pradesh

Choose the correct option from the codes given below :

[A] 1 & 2

[B] 1, 2 & 3

[C] 1, 2 & 4

[D] 1, 2, 3 & 4

94. Arrange the following state as per the descending order of their soil affected area

1. Madhya Pradesh

2. Rajasthan

3. Maharashtra

4. Uttar Pradesh

Choose the correct option from the codes given below :

[A] 2, 4, 1, 3

[B] 2, 4, 3, 1

[C] 2, 1, 3, 4

[D] 3, 2, 1, 4

95. Arrange the following states in descending order of their total area under forest cover

1. Jharkhand

2. Madhya Pradesh

3. Arunachal Pradesh

4. Chhattisgarh

Choose the correct option from the codes given below :

[A] 1, 2, 3, 4

[B] 2, 3, 4, 1

[C] 2, 4, 3, 1

[D] 2, 4, 1, 3

96. Which among the following matches of biosphere reserves of India and the states are correct?

1. Simlipal- Odisha

2. Kangchendzonga- Sikkim

3. Panna- Madhya Pradesh

4. Nilgiri- Tamil Nadu

Choose the correct option from the codes given below :

[A] 1 & 2

[B] 2 & 4

[C] 1, 2 & 4

[D] 1, 2, 3 & 4

97. Which among the following matches of minerals and the states are correct?

1. Bauxite- Orissa
2. Mica- Andhra Pradesh
3. Zinc- Rajasthan
4. Copper- Madhya Pradesh

Choose the correct option from the codes given below :

[A] 1 & 2

[B] 1, 2 & 3

[C] 1, 2 & 4

[D] 1, 2, 3 & 4

98. Which among the following matches of states and related Copper mining centers are correct?

1. Madhya Pradesh- Malanjkhand
2. Rajasthan- Jhunjhunu
3. Jharkhand- Ghatsila

Choose the correct option from the codes given below :

[A] 1 & 2

[B] 1 & 3

[C] 2 & 3

[D] 1, 2 & 3

99. Which among the following matches of the power plant and their state are correct?

1. Ukai- Gujarat
2. Satpura- Madhya Pradesh
3. Dabhol- Maharashtra
4. Patratu- Jharkhand

Choose the correct option from the codes given below :

[A] 1 & 2

[B] 2 & 4

[C] 1, 3 & 4

[D] 1, 2, 3 & 4

100. What is the name of the program to be attended by the Prime Minister of India, with Street Vendors from Madhya Pradesh?

- [A] SVanidhiSamvaad
- [B] SVanidhi Speaks
- [C] SVanidhi Ki Baat
- [D] SVanidhi Virtual

HINDI

1. सिक्किम किस वर्ष भारत का हिस्सा बना ?

(ए) 1972

(बी) 1975

(सी) 1977

(डी) 1980

2.

भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद

दके तहत की गई है ?

(ए) अनुच्छेद 122

(बी) अनुच्छेद 178

(सी) अनुच्छेद 272

(डी) अनुच्छेद 315

3.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष में किया जाता है

(ए) 1990

(बी) 1993

(सी) 1995

(डी) 1997

4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है a

(ए) स्वायत्त सार्वजनिक निकाय

(बी) संवैधानिक निकाय

(सी) अतिरिक्त संवैधानिक निकाय

(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. राष्ट्रीयमानवाधिकारआयोगकाअध्यक्षकौनहोसकता है

- (ए) सुप्रीमकोर्टकेमुख्यन्यायाधीश
- (बी) सुप्रीमकोर्टकेन्यायाधीश
- (सी) उच्चन्यायालयकेमुख्यन्यायाधीश
- (डी) लोकसभाकेसदस्य

6. भारतकेनियंत्रकऔरमहालेखापरीक्षककेलिएनामांकितकर्ताकौनहै

- (ए) भारतकेराष्ट्रपति
- (बी) भारतकेउपराष्ट्रपति
- (सी) भारतकेप्रधानमंत्री
- (डी) भारतकेमुख्यन्यायाधीश

7. भारतकेप्रथमनियंत्रकएवंमहालेखापरीक्षककौनथे?

- (ए) एकेचंद्र
- (बी) एकेरॉय
- (सी) एसरंगनाथन
- (डी) वीनरहरिराव

8. लोकलेखासमिति (पीएसी) कीअधिकतमसंख्याहोसकतीहै

- (ए) 10
- (बी) 12
- (सी) 22
- (डी) 25

9. लोकलेखासमिति (पीएसी) केअध्यक्षकीनियुक्तिकिसकेद्वाराकीजातीहै?

- (ए) लोकसभाअध्यक्ष
- (बी) राष्ट्रपति
- (सी) मुख्यन्यायाधीश
- (डी) राज्यसभाकेअध्यक्ष

10. भारतका28वांराज्यकौनसाहै?

- (ए) उत्तराखंड
- (बी) गोवा
- (सी) झारखंड
- (डी) छत्तीसगढ़

11. संसदमेंधनविधेयककिसकीसिफारिशकेसाथपेशकियाजासकताहै?

- (ए) प्रधानमंत्री
- (बी) राष्ट्रपति
- (सी) लोकसभाअध्यक्ष
- (डी) वित्तमंत्री

12. भारतकेराष्ट्रपतिबननेवालेएकमात्रलोकसभाअध्यक्षकौनथे?

- (ए) वीवीगिरि
- (बी) जैलसिंह
- (सी) नीलमसंजीवरेड्डी
- (डी) एसराधाकृष्णन

13. भारतमेंआपातकालकीस्थितिबर्षमेंघोषितकीगईथी

- (ए) 1972
- (बी) 1973
- (सी) 1975
- (डी) 1977

14. आपातकालघोषितहोनेपरभारतकेप्रधानमंत्रीकौनथे

- (ए) राजीवगांधी
- (बी) इंदिरागांधी
- (सी) मोरारजीदेसाई
- (डी) चरणसिंह

15. भारतमें१९७५मेंआपातकालकिसअनुच्छेदकेतहत लागूकियागयाथा?

(ए) 375

(बी) 242

(सी) 320

(डी) 352

16. भारतकी 'लुकईस्टपॉलिसी'

कीशुरुआतप्रधानमंत्रीनेकीथी

(ए) राजीवगांधी

(बी) पीवीनरसिम्हाराव

(सी) अटलबिहारीवाजपेयी

(डी) मनमोहनसिंह

17.

निम्नलिखितमेंसेकौनसाअनुच्छेदभारतीयसंविधानमें

"जीवनकाअधिकार" कागठनकरताहै

(ए) अनुच्छेद16

(बी) अनुच्छेद21

(सी) अनुच्छेद26

(डी) अनुच्छेद36

18.

भारतकेसंविधानमेंकिसकेद्वारासंशोधनकियाजासक

ताहै?

(ए) अनुच्छेद256

(बी) अनुच्छेद324

(सी) अनुच्छेद352

(डी) अनुच्छेद368

19.

भारतीयसंविधानकी12वींअनुसूचीशहरीस्थानीयनि

कायों (नगरपालिकाओं)

केकार्यात्मकक्षेत्रमें_____

नएकार्योंकोपरिभाषितकरतीहै

(ए) 12

(बी) 14

(सी) 16

(डी) 18

20.

राज्यकेनीतिनिदेशकतत्वोंकोकिसदेशसेअपनायागया है?

(ए) इंग्लैंड

(बी) यूएसए

(सी) आयरलैंड

(डी) जर्मनी

21.

संविधानकीछठीअनुसूचीमेंकौनसाराज्यशामिलनहींहै

जिसमेंआदिवासीक्षेत्रोंकेप्रशासनसेसंबंधितप्रावधान शामिलहैं

(ए) असम

(बी) मेघालय

(सी) त्रिपुरा

(डी) नागालैंड

22.

निम्नलिखितमेंसेकौनएकअतिरिक्तसंवैधानिकनिकाय है

(ए) योजनाआयोग

(बी) एससीऔरएसटीआयोग

(सी) वित्तआयोग

(डी) अंतर-राज्यपरिषद

23.

निम्नलिखितमेंसेकिससमितिनेभारतमेंपंचायतीराजव्यवस्थाकेलिएसिफारिशकीथी?

(ए) पुंछीसमिति

(बी) बलवंतरायमेहतासमिति

(सी) सिंघवीसमिति

(डी) निम्नलिखितमेंसेकोईनहीं

24. भारतकीपंचायतीराजव्यवस्थामेंकितनेस्तरहैं?

(ए) एकस्तरीय

(बी) दोस्तरीय

(सी) तीनस्तरीय

(डी) चारस्तरीय

25.

प्रत्यक्षचुनावकेआधारपरनिम्नलिखितमेंसेकौनसीप्र
 णालीस्थापितकीजातीहै?

(ए) ग्रामपंचायत

(बी) ब्लॉकसमिति

(सी) जिलापरिषद

(डी) बीऔरसीदोनों

26. निम्नलिखितमेंसेकौनसाकथनसहीनहींहै?

(a)

भारतमेंपंचायतीराजकीस्थापनाजवाहरलालनेहरूने
 कीथी

(बी)

मध्यप्रदेशपहलाराज्यथाजिसनेभारतमेंपंचायतीराजप्र
 णालीलागूकीथी

(c)

73वांसंविधानसंशोधन1992मेंलागूकियागयाथा

(डी) तमिलनाडुनेद्विसदनीयपद्धतिकोअपनायाहै

27.

निम्नलिखितमेंसेकौनसाअनुच्छेदपंचायतीराजसेसंबं
 धितहै?

(ए) अनुच्छेद243

(बी) अनुच्छेद324

(सी) अनुच्छेद124

(डी) अनुच्छेद73

28.

भारतमेंपंचायतीराजव्यवस्थालानेकेपीछेमुख्यउद्देश्य
 क्याथा?

(ए) राजनीतिकेअपराधीकरणकोरोकनेकेलिए

(बी) गांवोंकाविकास

(सी) आमलोगोंकोराजनीतिकशक्तिकाविकेंद्रीकरण

(डी) चुनावखर्चकोकमकरनेकेलिए

29.

73वेंसंविधानसंशोधनद्वाराकिसअनुसूचीकोसंविधान
 मेंजोड़ागया?

(ए) 6वां

(बी) 7वां

(सी) 9वां

(डी) 11वां

30. "ग्रामसभा"

केसंबंधमेंकौनसाकथनसहीनहींहै?

(ए)

यहपंचायतस्तरकेक्षेत्रमेंशामिलएकगांवकीमतदातासू
 चीमेंपंजीकृतव्यक्तियोंसेयुक्तएकनिकायहै।

(बी)

यहपंचायतकेक्षेत्रमेंसभीपंजीकृतमतदाताओंसेमिलकर
 एकग्रामसभाहै।

(सी) इसकीशक्तियांकेंद्रसरकारद्वारानिर्धारितकीगईहैं

(डी)

ग्रामस्तरपरइसकीशक्तियांऔरकार्यराज्यस्तरपरराज्य
 विधानमंडलकीतरहहैं।

31. पंचायतीराजकेबारेमेंकौनसाकथनसत्यहै?

(ए)

सीधेनिर्वाचितसदस्योंकेसाथपंचायतसमितिऔरजि
 लापरिषदकागठनकियाजानाचाहिए।

(बी)

पंचायतस्तरपरचुनावलड़नेकेलिएन्यूनतमआयु18व
 र्षहोनीचाहिए

(सी)

पंचायतीराजसंस्थाओंकाचुनावराज्यचुनावआयोगके
 मार्गदर्शनमेंआयोजितकियाजाताहै।

(d)

पंचायतोंकीवित्तीयसमीक्षाकेलिए6वर्षबादराज्यवित्त
 आयोगकीस्थापनाकीजातीहै

32. पंचायतीराजव्यवस्थामेंसभीस्तरोंपरमहिलाओंकेलिए कितनेपदआरक्षितहैं।

- (ए) 1/3
 (बी) 1/2
 (सी) 2/3
 (डी) 1/4

33. हर्षोद (जिप्सम)

निम्नलिखितमेंसेकिसजिलेमेंपायाजाताहै?

- (ए) जबलपुर (बी) रीवा (सी) सागर (डी) ग्वालियर

34.

मध्यप्रदेशकामंत्रिमंडलकिसकेप्रतिउत्तरदायीहै?

- (ए) राज्यपालको (बी) मुख्यमंत्रीको (सी) विधानसभाकेलिए (डी) उपरोक्तमेंसेकोईनहीं

35.

मध्यप्रदेशमेंखनिजोंकेविकासकेलिएनिम्नलिखितमेंसे किसवर्षमध्यप्रदेशखनिजविकासनिगमकीस्थापनाकी गईहै?

- (ए) 1952 (बी) 1962 (सी) 1956 (डी) 1968

36.

निम्नलिखितमेंसेकौनसास्थानसफेदशेरकेलिएप्रसिद्ध है?

- (ए) मालवा (बी) छत्तीसगढ़ (सी) बघेलखंड (डी) इनमेंसेकोईनहीं

37.

मध्यप्रदेशमेंइंटीमाधार्मिकसम्मेलनकहाँआयोजितकियाजाताहै?

- (ए) जवारा (बी) इंदौर (सी) ग्वालियर (डी) भोपाल

38.

2011कीजनसंख्याकेअनुसार।मध्यप्रदेशमेंलिंगानुपातक्याहै?

(ए) 929महिलाप्रति1000पुरुष (बी)

941महिलाप्रति1000पुरुष

(सी) 934महिलाप्रति1000पुरुष (डी)

931महिलाप्रति1000पुरुष

39.

2011कीजनगणनाकेअनुसारमध्यप्रदेशमेंजनसंख्याकाघनत्वहै-

(ए) 155व्यक्तिप्रतिकिमी² (बी)

188व्यक्तिप्रतिकिमी² (सी)

236व्यक्तिप्रतिकिमी² (डी)

172व्यक्तिप्रतिकिमी²

40.

मध्यप्रदेशकी2011कीजनगणनाकेअनुसारमहिला औरपुरुषदोनोंमेंसाक्षरताकाप्रतिशतक्याहै?

(ए) पुरुष७८.७% महिला५९.२% (बी)

पुरुष४८.४% महिला१८.९%

(सी) पुरुष48.41%महिला28.39% (डी)

पुरुष57.43%महिला18.99%

41. मध्यप्रदेशराज्यकागठनकबहुआथा?

(ए) 15अगस्त, 1947 (बी) 26जनवरी,

1950 (सी) 1नवंबर, 1956 (डी) 1जनवरी, 1960

42.

मध्यप्रदेशकी2011कीजनगणनाकेअनुसारकुलग्रामीणजनसंख्याहै-

(ए) 37,612,920 (बी) 52,537,899

(सी) 20,059,666 (डी) 34,984,645

43.

मध्यप्रदेशमेंन्यूजप्रिंटपेपरकाकारखानाकहाँस्थितहै?

(ए) नेपानगर (बी) पुनासा (सी) होशंगाबाद (डी)

इनमेंसेकोईनहीं

44. वर्तमानमेंमध्यप्रदेशराज्यकेराज्यपालकौनहैं?

(ए) कुंवरमहमूदअली (बी) मगनूभाईपटेल (सी) रमेशभंडारी (डी) पीसीएलेक्जेंडर
 45.

मध्यप्रदेशमेंकिसप्रकारकावृक्षसर्वाधिकपायाजाताहै?
 (ए) साल (बी) शीशम (सी) सागौन (डी) आम
 46.

निम्नलिखितमेंसेकौनसाशहरचंबलघाटीमेंस्थितहै?
 (ए) मऊ (बी) मुरैना (सी) भिंड (डी) रतलानी
 47. मध्यप्रदेशकामुख्यकपासउत्पादकक्षेत्रहै-

(ए) पश्चिमीमध्यप्रदेश (बी) उत्तरीमध्यप्रदेश
 (सी) पूर्वीमध्यप्रदेश (डी) उपरोक्तमेंसेकोईनहीं
 48. लिंगानुपातकीपरिभाषाक्याहै?

(ए) बच्चोंकेप्रति 1,000जीवितजन्मोंपरहोनेवालीमौतोंकीसंख्या

(बी) प्रति 1000पुरुषोंपरमहिलाओंकीसंख्या
 (सी) प्रति 100000पुरुषोंपरमहिलाओंकीसंख्या
 (डी) प्रति 1000महिलाओंपरपुरुषोंकीसंख्या

49. शिशुमृत्युदरकाक्याअर्थहै?

(ए) 1वर्षसेकमउम्रकेबच्चोंकेप्रति 1,000जीवितजन्मोंमेंहोनेवालीमौतोंकीसंख्या

(बी) 5सालसेकमउम्रकेबच्चोंकीमौत
 (सी) 6महीनेकीउम्रसेपहलेबच्चोंकीमौत
 (डी) 3सालसेकमउम्रकेबच्चोंकीमौत

50. बाललिंगअनुपातकीगणनाकेलिएकिसआयुवर्गकोशामिलक्रियागयाहै?

(ए) 1-6साल
 (बी) 0-5साल
 (सी) 0-6साल
 (डी) 0- 6महीने

51. बाललिंगअनुपातकेसंबंधमेंकौनसाकथनसहीनहींहै?

(ए) अरुणाचलप्रदेशमेंभारतकेसभीराज्योंमेंसबसेज्यादालिंगानुपातहै

(बी) केरलमेंभारतकेसभीराज्योंमेंसबसेज्यादालिंगानुपातहै

(C) भारतकेसभीराज्योंमेंहरियाणाकालिंगानुपातसबसेकमहै

(डी) 2001कीजनगणनाकीतुलनामें2011मेंबाललिंगअनुपातमेंकमीआईहै

52. मातृमृत्युदरक्याहै?

(ए) गर्भावस्थाके9वेंमहीनेसेपहलेमहिलाओंकीमृत्युहुई
 (बी)

गर्भावस्थाकेकारणप्रति १,००,०००जीवितजन्मोंपरमहिलामृत्युकीवार्षिकसंख्या।

(सी) महिलाओंकीमृत्युबच्चेकेजन्मके2सालकेभीतरहुईथी
 (डी) उपरोक्तमेंसेकोईनहीं

53. राज्योंमेंलिंगानुपातकीसंख्याकेआधारपरसहीअवरोहीक्रमक्याहै?

(ए) केरल<छत्तीसगढ़<मिजोरम<आंध्रप्रदेश
 (बी) अरुणाचलप्रदेश<केरल<मणिपुर<मेघालय
 (सी) मेघालय<केरल<<छत्तीसगढ़<तमिलनाडु
 (डी) केरल<तमिलनाडु<आंध्रप्रदेश<छत्तीसगढ़

54. 2011कीजनगणनाकेअनुसारभारतमेंकुलप्रजननदर(टीएफआर) कितनीथी?

(ए) 2.1
 (बी) 2.3

(सी) 2.4

(डी) 2.0

55. कुलप्रजननदर (टीएफआर)

केसंदर्भमेंनिम्नलिखितमेंसेकौनसाकथनसत्यनहींहै?

(ए)

एकमहिलाकेपूरेप्रजननकालमेंपैदाहुएबच्चोंकीसंख्या
कोउसमहिलाकीकुलप्रजननदरकहाजाताहै

(बी) बिहारमेंभारतीयराज्योंमें3.3कीउच्चतम

"कुलप्रजननदर" है

(सी) पश्चिमबंगाल,

तमिलनाडुऔरदिल्लीकीकुलप्रजननदर

(टीएफआर) बराबरहै

(डी) भारतमेंबौद्धधर्ममेंसबसेकम "कुलप्रजननदर"
है।

56.

2016मेंनीतिआयोगद्वाराजारीनवीनतमआंकड़ोंके
अनुसार; 2016मेंभारतमेंशिशुमृत्युदरक्याहै?

(ए) 42प्रति1000जीवितजन्म

(बी) 34प्रति1000जीवितजन्म

(सी) 29प्रति1000जीवितजन्म

(डी) 54प्रति1000जीवितजन्म

57.

भारतकेकिनराज्योंमेंशिशुमृत्युदरक्रमशःसबसेकमऔर
उच्चतमहै?

(ए) केरल, बिहार

(बी) ओडिशा, झारखंड

(सी) गोवा, मध्यप्रदेश

(डी) महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश

58. मध्यप्रदेशमेंकितनेअंतरराष्ट्रीयहवाईअड्डेमौजूद
हैं?

[ए] 0

[बी] १

[सी] 2

[डी] 3

59. प्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीनेमध्यप्रदेशकेकिसजिलेमेंरा
ष्ट्रीयग्रामस्वराजअभियानकीशुरुआतकीहै?

[ए] जबलपुर

[बी] ग्वालियर

[सी] मंडला

[डी] इंदौर

60.

मध्यप्रदेशकेपूर्वमंत्रीडॉनिर्मलहीरावतकानिधनहोगया
है।वहकिसराजनीतिकदलसेजुड़ीथीं?

[ए] भारतीयराष्ट्रीयकांग्रेस

[बी] भारतीयजनतापार्टी

[सी] बहुजनसमाजपार्टी

[डी] राष्ट्रवादीकांग्रेसपार्टी

61. मध्यप्रदेशसरकारनेहालहीमेंकिसजिलेमें250
MW NTPC

सौरऊर्जासंयंत्रकाउद्घाटनकियाहै?

[ए] पन्ना

[बी] मंदसौर

[सी] इंदौर

[डी] जबलपुर

62. भारतमेंअनुसूचितजनजातिजनसंख्याकेवितरण
केसंबंधमें, निम्नलिखितकथनोंपरविचारकरें:

1. राज्योंऔरकेंद्रशासितप्रदेशोंमें,

कुलजनसंख्यामेंजनजातीयआबादीकाअधिकतमहि
स्सामध्यप्रदेशकाहै

2. मध्यप्रदेश,

छत्तीसगढ़औरओडिशामेंभारतकीकुलजनजातीयआ
बादीकाआधेसेअधिकहिस्साहै

3.

पंजाबऔरहरियाणामेंकोईअनुसूचितजनजातिनहींहै,
उपरोक्तमेंसेकौन-सा/सेसहीकथनहै/हैं?

[ए] केवल1और2

[बी] केवल 2 और 3

[सी] केवल 1 और 3

[डी] 1, 2 और 3

63. भारत में दलहन उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और साथ ही दालों का आयातक है
 2. भारत की सबसे अधिक उत्पादित दाल चना मटर है
 3. भारत का शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है
- उपरोक्त में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

[ए] केवल 1 और 2

[बी] केवल 2 और 3

[सी] केवल 1 और 3

[डी] 1, 2 और 3

64. भारत में कपास की खेती के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत के लगभग 65% कपास का उत्पादन वर्षा आधारित क्षेत्रों में होता है
 2. कपास का अधिकांश उत्पादन मध्य क्षेत्र में होता है जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं
- नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

[ए] केवल 1

[बी] केवल 2

[सी] 1 और 2 दोनों

[डी] न तो 1 और न ही 2

65. भारत ने मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए ए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?

[ए] \$220 मिलियन

[बी] \$210 मिलियन

[सी] \$230 मिलियन

[डी] \$240 मिलियन

66. केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना शुरू की है?

[ए] राजगढ़

[बी] भोपाल

[सी] इंदौर

[डी] जबलपुर

67.

रानेह जल प्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है?

[ए] काली सिंधी

[बी] नर्मदा

[सी] केनो

[डी] ताप्ती

68.

झरनों के निम्नलिखित युग्मों पर उन राज्यों के साथ विचार करें जहां वे स्थित हैं:

1. पांडवकड़ा - महाराष्ट्र

2. रानेह - मध्य प्रदेश

3. दुदुमा-ओडिशा

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

[ए] 2 और 3 केवल

[बी] केवल 3

[सी] 2 केवल

[डी] 1, 2 और 3

69.

जीआई संरक्षित उत्पादों और उन के संबंधित राज्यों के निम्नलिखित मिलानों पर विचार करें:

1. मुगासिल्क - असम

2. थेवाकला - राजस्थान

3. शफीलांफी - नागालैंड

4. बस्तर ढोकरा - मध्य प्रदेश

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही मिलान है/हैं:

[ए] 1 केवल

[बी] 1 और 2 केवल

[सी] १, २ और ३ केवल

[डी] 1, 2, 3 और 4

70.

उन राज्यों के साथ निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार करें जहां वे स्थित हैं:

1. रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान - मध्य प्रदेश

2. बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान - कर्नाटक

3. फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान - केरल

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

[ए] 1 केवल

[बी] १ और ३ केवल

[सी] 1, 2 और 3

[डी] कोई नहीं

71. भारत वन राज्य रिपोर्ट (आईएसएफआर)

2017 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1.

यह दर्शाता है कि 2015 के आकलन की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में 1.5% की वृद्धि हुई है

2.

रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

[ए] 1 केवल

[बी] 2 केवल

[सी] 1 और 2 दोनों

[डी] न तो १ और न ही २

72. भारत के पहले निजी क्षेत्र के छोटे हथियार निर्माण संयंत्र का हाल ही में मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। यह भारत और _ के बीच एक संयुक्त उद्यम है?

[ए] रूस

[बी] इजराइल

[सी] फ्रांस

[डी] यू.एस.ए

73.

नमूना पंजीकरण प्रणाली के तहत हाल की रिपोर्टों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1.

भारत ने 1990 से 2015 के बीच शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट दिखाई है

2. भारत में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

[ए] 1 केवल

[बी] 2 केवल

[सी] 1 और 2 दोनों

[डी] न तो १ और न ही २

74. निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर उन से जुड़े राज्यों पर विचार करें:

1. बाणसागर - उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश

2. राजघाट - मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र

3. मयूराक्षी - झारखंड और पश्चिम बंगाल

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

[ए] केवल 1 और 3

[बी] 1 केवल

[सी] 2 और 3 केवल

[डी] 1, 2 और 3

75. विश्व बैंक ने

"पारिस्थितिकी तंत्र से वासुधार परियोजना"

के लिए वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य वन-

निर्भर समुदायों को लाभान्वित करने के लिए वन गुणवत्ता, भूमि प्रबंधन और गैर-लकड़ी वन उपज (एनटीएफपी) जैसे नट,

मशरूम और खेल जानवरों में सुधार करना है। यह परियोजना भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू की जा रही है?

1. मध्यप्रदेश

2. छत्तीसगढ़

3. उड़ीसा

नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

[ए] 1 और 2 केवल

[बी] 2 और 3 केवल

[सी] 1, 2 और 3

[डी] कोई नहीं

76. भारत ने मध्य प्रदेश में सिंचाई में सुधार के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 375 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?

[ए] एडीबी

[बी] एआईआईबी

[सी] विश्व बैंक

[डी] आईएमएफ

77. निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट है?

[ए] ग्वालियर

[बी] भोपाल

[सी] इंदौर

[डी] जबलपुर

78. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है?

[ए] बोरी वन्य जीव अभयारण्य

[बी] कुनो वन्य जीव अभयारण्य

[सी] नौरा देही वन्य जीव अभयारण्य

[डी] खेनी अभयारण्य

79. मध्य प्रदेश में 'मानर्मदा,

मांक्षिप्रा और मांमंदा किनीन दी ट्रस्ट'

के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

[ए] आदित्य जोशी

[बी] मधुसूदन पाटीदार

[सी] वर्षा वर्मन

[डी] नामदेव त्यागी

80. भारत का पहला गाय अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है?

[ए] नीमच

[बी] आगरमालवा

[सी] मंदसौर

[डी] उज्जैन

81. किस शहर से,

मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान शुरू की गई है?

[ए] इंदौर

[बी] भोपाल

[सी] जबलपुर

[डी] ग्वालियर

82. न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)

ने मध्य प्रदेश को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कि तनी राशिके ऋण को मंजूरी दी है?

[ए] \$625-मिलियन

[बी] \$725-मिलियन

[सी] \$525-मिलियन

[डी] \$425-मिलियन

83. हाल ही में,

यह खबर थी कि बाघिन अवनिया T1 को आदम खोर घोषित किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1.

बाघ को आदम खोर घोषित करने की शक्ति केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास है।

2.

बाघ को आदम खोर घोषित करने के लिए केवल मनुष्यों पर जान बूझ कर किए गए हमलों पर विचार किया जाएगा।

3. अवनिकानिवासस्थानमध्यप्रदेशकायवतमालवनक्षेत्र है।

उपरोक्तमेंसेकौन-सा/सेसहीकथनहै/हैं?

[ए] केवल 1 और 2

[बी] केवल 2

[सी] केवल 2 और 3

[डी] 1, 2 और 3

84. मध्यप्रदेशमें, महिलाएँनिम्नलिखितमेंसेकिसजिलेमेंमतगणनाकासाराकामसंभालेंगी?

[ए] जबलपुर

[बी] इंदौर

[सी] हरदा

[डी] बुरहानपुर

85. मध्यप्रदेशकेकिसस्थलकोयूनेस्कोकीविश्वधरोहर स्थलोंकीअस्थायीसूचीमेंशामिलकियागयाहै?

[ए] महेश्वर

[बी] ओरछा

[सी] उज्जैन

[डी] खंडवा

86. किसशहरसे, मध्यप्रदेशसेपहलीअंतरराष्ट्रीयवाणिज्यिकउड़ानशुरू कीगईहै?

[ए] इंदौर

[बी] भोपाल

[सी] जबलपुर

[डी] ग्वालियर

87. डिजिटलइंडियाअभियानकेतहतमध्यप्रदेशकेकिसजिलेकाबांजारीगांवदेशकेडिजिटलमानचित्रकाअभिनंगबनगयाहै?

[ए] कटनी

[बी] जबलपुर

[सी] छिंदवाड़ा

[डी] ग्वाँ

88. सूचीI कोसूचीII

सेसुमेलितकीजिएऔरसूचियोंकेनीचेदिएगएकूटकाप्रयोगकरसहीउत्तरचुनिए:

सूचीI सूचीII

(कृषिउत्पाद) (सबसेप्रमुखउत्पादक)

I. कपास (ए) मध्यप्रदेश

द्वितीय. ग्राम (बी) गुजरात

III. कालीमिर्च (सी) पश्चिमबंगाल

चतुर्थाअनानस (डी) केरल

कोड:

[ए] आई-बी, द्वितीय-ए, तृतीय-डी, चतुर्थ-सी

[बी] आई-बी, द्वितीय-ए, तृतीय-सी, चतुर्थ-डी

[सी] आई-ए, द्वितीय-बी, तृतीय-डी, चतुर्थ-सी

[डी] आई-ए, द्वितीय-बी, तृतीय-सी, चतुर्थ-डी

89.

मध्यप्रदेशराज्यमेंदूधमेंमिलावटकरनेवालोंकेखिलाफ राष्ट्रीयसुरक्षाअधिनियमलागूकरनेकेलिएतैयारहै।अधिनियमकेबारेमेंनिम्नलिखितकथनोंपरविचारकरें:

1.

एनएसएकेंद्रऔरराज्यसरकारोंदोनोंद्वारा6महीनेकीअवधिकेलिएनिवारकनिरोधकीअनुमतिदेताहै

2. 1980मेंअधिनियमित,

यहभारतमेंपहलानिवारकनिरोधकानूनहै।

3.

एनसीआरबीकेरिकॉर्डबतातेहैंकि 14लाखलोगोंकोनिवारककानूनोंकेतहततरखागयाहै।

नीचेदिएगएकूटोंमेंसेसहीविकल्पकाचयनकीजिए :

[ए] केवल 1

[बी] उपरोक्तमेंसेकोईनहीं

[सी] उपरोक्तसभी

[डी] 1 और 3

90. मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफा देने के बाद चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?

[ए] विनय सहस्रबुद्धे

[बी] शिवराज सिंह चौहान

[सी] गोपाल भार्गव

[डी] अरुण सिंह

91.

73 वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है?

1. नागालैंड

2. मेघालय

3. मिजोरम

4. मध्य प्रदेश

नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

[ए] केवल 1 और 2

[बी] केवल 2 और 3

[सी] केवल 1, 2 और 3

[डी] 1, 2, 3 और 4

92. निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों और उन राज्यों के मेल सही हैं?

1. बघेलखंड- मध्य प्रदेश

2. कुट्टनाड- केरल

3. रार- पश्चिम बंगाल

4. सौराष्ट्र- गुजरात

नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

[ए] 1 और 2

[बी] 1 और 4

[सी] 2 और 4

[डी] 1, 2, 3 और 4

93. दंडकारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

1. उड़ीसा

2. छत्तीसगढ़

3. आंध्र प्रदेश

4. मध्य प्रदेश

नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

[ए] 1 और 2

[बी] 1, 2 और 3

[सी] 1, 2 और 4

[डी] 1, 2, 3 और 4

94. निम्नलिखित राज्यों को उनके मिट्टी प्रभावित क्षेत्र के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें

1. मध्य प्रदेश

2. राजस्थान

3. महाराष्ट्र

4. उत्तर प्रदेश

नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

[ए] 2, 4, 1, 3

[बी] 2, 4, 3, 1

[सी] 2, 1, 3, 4

[डी] 3, 2, 1, 4

95. निम्नलिखित राज्यों को वन क्षेत्र के अंतर्गत उनके कुल क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें

1. झारखंड

2. मध्य प्रदेश

3. अरुणाचल प्रदेश

4. छत्तीसगढ़

नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

[ए] 1, 2, 3, 4

[बी] 2, 3, 4, 1

[सी] 2, 4, 3, 1

[डी] 2, 4, 1, 3

96. भारत और राज्यों के बायोस्फीयर रिजर्व के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है?

1. सिमलीपाल- उड़ीसा
2. कंचनजंगा-सिक्किम
3. पन्ना- मध्य प्रदेश
4. नीलगिरि- तमिलनाडु

नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

[ए] 1 और 2

[बी] २ और ४

[सी] 1, 2 और 4

[डी] 1, 2, 3 और 4

97. निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और राज्यों का मेल सही है?

1. बॉक्साइट- उड़ीसा
2. अभ्रक- आंध्र प्रदेश
3. जिंक- राजस्थान
4. कॉपर- मध्य प्रदेश

नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

[ए] 1 और 2

[बी] 1, 2 और 3

[सी] 1, 2 और 4

[डी] 1, 2, 3 और 4

98. निम्नलिखित में से राज्यों और संबंधित तापमान के द्रोणों में से कौन सा मिलान सही है?

1. मध्य प्रदेश- मलंजखंड
2. राजस्थान- झुंझुनू

3. झारखंड- घाटशिला

नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

[ए] 1 और 2

[बी] १ और ३

[सी] 2 और 3

[डी] 1, 2 और 3

99.

पावर प्लांट और उन के राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है?

1. उकाई- गुजरात

2. सतपुड़ा- मध्य प्रदेश

3. दाभोल- महाराष्ट्र

4. पतरातू- झारखंड

नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

[ए] 1 और 2

[बी] 2 और 4

[सी] 1, 3 और 4

[डी] 1, 2, 3 और 4

100.

मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भाग लिए जाने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है?

[ए] स्वनिधिसंवाद

[बी] स्वनिधि बोलती हैं

[सी] स्वनिधिकी बात

[डी] एसवनिधिवर्चुअल

ANSWERS WITH EXPLANATION

1. Answer: (b) 1975

2. Answer: (d) Article 315

3. Answer: (b) 1993

4. Answer: (a) Autonomous Public Body

5. Answer: (a) Chief Justice of Supreme Court

6. Answer: (c) Prime Minister of India

7. Answer: (d) V Narahari Rao

8. Answer: (c) 22

9. Answer: (a) Speaker of Lok Sabha
 10. Answer: (c) Jharkhand
 11. Answer: (b) President
 12. Answer: (c) Neelam Sanjiva Reddy
 16. Answer: (b) PV Narasimha Rao
 17. Answer: (b) Article 21
 18. Answer: (d) Article 368
 19. Answer: (d) 18
 20. Answer: (c) Ireland
 21. Answer: (d) Nagaland
 22. Answer: (a) Planning Commission
 23. Answer b
 Explanation: Balwant Rai Mehta Committee was made for Panchayati Raj system in India; which submitted its report in 1957.
 24. Answer c
 Explanation: Three-tier system is arranged i.e. Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad.
 25. Answer a
 Explanation: The Gram Panchayat is established on the basis of direct election.
 26. Answer b
 Explanation: First of all the Panchayati Raj system was established in Rajasthan (2 October 1959) after which Andhra Pradesh adopted this system.
 27. Answer a
 Explanation: Article 243
 28. Answer c
 Explanation: Decentralization of power to connect the masses with politics
 29. Answer d
 Explanation: 11th schedule was added in the Indian constitution.
 30. Answer c
 Explanation: Its powers have been determined by the State Legislature.
 31. Answer c
 Explanation: Election of the Panchayati Raj institutions is conducted under the guidance of the State Election Commission.
 32. Answer a
 Explanation: One-third posts (for both the member and the chief) are reserved for women.
 13. Answer: (c) 1975
 14. Answer: (b) Indira Gandhi
 15. Answer: (d) 352
 33Ans : C
 34Ans : C
 35Ans : C
 36Ans : C
 37Ans : D
 38Ans : D
 39Ans : C
 40Ans : A
 41Ans : C
 42Ans : B
 43Ans : A
 44Ans : B
 45Ans : C
 46. Ans : A
 47Ans : A
 48. Answer: b
 Explanation: The sex ratio means the number of females per 1000 males. According to the 2011 census, India's sex ratio is 943 females per 1,000 males. The highest sex ratio in the whole India is in Kerala.
 49. Answer: a

Explanation: Infant Mortality Rate (IMR) is the number of deaths per 1,000 live births of children under age of one year

50. Answer: c

Explanation: The Child Sex Ratio is defined as the number of females per thousand males in the age group 0–6 years in a human population. According to the 2011 census, India's sex ratio is 919, which was 927 in 2001 census.

51. Answer: b

Explanation: Arunachal Pradesh (972) has the highest sex ratio among all states of India. Kerala's sex ratio is just 964.

52. Answer: b

Explanation: The Maternal Mortality Rate (MMR) is the annual number of female deaths per 100,000 live births from any cause related to or aggravated by pregnancy or its management (excluding accidental or incidental causes). For its calculation, the number of deaths due to infant birth is divided by the total number of infant births

53. Answer: d

Explanation: Kerala < Tamil Nadu < Andhra Pradesh < Chhattisgarh. Sex ratio in Indian states is given below;

Sex ratio in Kerala: 1084

Sex ratio in Tamil Nadu: 995

Sex ratio in Andhra Pradesh: 992

Sex ratio in Chhattisgarh: 991

54. Answer: c

Explanation: According to Census 2011, the Total Fertility Rate (TFR) in India was 2.4 which has come down to 2.3 in the year 2016. The aim of the Government of India is to reduce it to 2.1.

55. Answer: d

Explanation: The lowest "Total Fertility Rate" (TFR) in India is in Jainism. The "Total Fertility Rate" of people of Jain religion is 1.2, which is much lower than India's "Total Fertility Rate" of 2.3

56. Answer: b

Explanation: According to the latest data of the 2016 NITI Aayog, the Infant Mortality Rate in India was 34 per 1000

live births. It means that if 1000 children born in India in a year, 34 of them died before one year of age.

57. Answer: c

Explanation: The state with the lowest Infant Mortality Rate in India is Goa, where the Infant Mortality Rate is only 8 and Madhya Pradesh has highest Infant Mortality Rate i.e. 47/1000

59. Correct Answer: C [Mandla]

Prime Minister Narendra Modi has launched the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan at Ram Nagar in Mandla district of Madhya Pradesh on the occasion of 2018 National Panchayati Raj Day. The purpose of the scheme is to strengthen the country's Panchayati Raj system and address critical gaps that hinder its success. The scheme focuses on training, building infrastructure and stepping up initiatives for e-governance under the e-Panchayat Mission Mode Project. Mr Modi also unveiled a plaque to mark the laying of foundation stone of an LPG bottling plant of Indian Oil Corporation at Maneri. He also inaugurated Aadi Mahotsava, a 3-day program on the conservation of ancient Tribal culture and heritage. The Prime Minister also unveiled a roadmap for the development of tribal areas in the state.

60. Correct Answer: A [Indian National Congress]

Dr Nirmal Hirawat (74), the former Madhya Pradesh minister and senior Congress leader, has passed away at Katangi town in Balaghat District on May 9, 2018. The Congress leader, who was well-known as a doctor among the local residents, was instrumental in getting the status of a tehsil for Katangi. He was a member of former Chief Minister Shyama Charan Shukla's cabinet.

61. Correct Answer: B [Mandsaur]

The Madhya Pradesh government has inaugurated the state-run power giant National Thermal Power Corporation

Limited (NTPC)'s 250 MW Solar Power Plant at Suwasra in district Mandsaur. This project has been set up mainly on non-agricultural land and generation of electricity has been achieved without affecting the natural eco-system with zero carbon emission at an investment of about Rs 1,500 crore. This is one of the biggest solar plant developed using domestically manufactured Solar cells and modules under the Make in India initiative. The Project has been commissioned in June 2017 and generated electricity is being supplied for consumption in Madhya Pradesh, the sole beneficiary
 62. Correct Answer: C [Only 1 & 3]

ST population by States, Madhya Pradesh stands first with 14.7%, followed by Maharashtra (10.1%), Odisha (9.2%), Rajasthan (8.9%), Gujarat (8.6%), Jharkhand (8.3%), Chhattisgarh (7.5%), Andhra Pradesh (5.7%), West Bengal (5.1%), Karnataka (4.1%), Assam (3.7%), Meghalaya (2.5%), and the remaining States represent 11.6% of the tribal population. Proportion of ST population in the rural areas is 11.3% and in urban areas is 2.8%. More than half the Scheduled Tribe population is concentrated in the States of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gujarat. (XAXA Committee Report)
 63. Correct Answer: D [1, 2 & 3]

Following graphics I took from Economic Times
 64. Correct Answer: C [Both 1 & 2]

Approximately 65% of Indian's cotton is produced on rainfed areas and 35% on irrigated lands. Cotton is produced in India in three zones viz., Northern zone comprising the States of Punjab, Haryana and Rajasthan, Central zone comprising the States of Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat and Southern zone comprising the States of Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. Besides these

nine States, cotton cultivation has gained momentum in the eastern State of Orissa
 65. Correct Answer: B [\$210 million]

On April 24, the Government of India (GoI), the Government of Madhya Pradesh and the World Bank have signed a \$210 million loan agreement for the Madhya Pradesh Rural Connectivity Project. The project is expected to improve the durability, resilience and safety of the gravel surfaced rural roads and enhance the capacity of the state to manage its rural roads network. The project will cover 10,510 km stretch of rural roads in Madhya Pradesh that fall under the Chief Minister's Gram Sadak Yojana (CMGSY) program. Of this 10,000 km will be upgraded from existing gravel to bituminous surface roads, while 510 km of new roads will be built to the same bituminous surface standard.
 66. Correct Answer: A [Rajgarh]

On June 23, Prime Minister Narendra Modi launched the Mohanpura Irrigation Project in Rajgarh district in Madhya Pradesh. The Rs 3,866-crore project includes a dam and a canal system. This project will facilitate irrigation of agricultural land in Rajgarh district. It will also provide drinking water to villages in the area. It will benefit 727 villages in the state and would irrigate 1.25 lakh hectares of land.
 67. Correct Answer: C [Ken]

The Raneh Falls is a natural water fall located in Chhatarpur district of Madhya Pradesh on Ken River. It is situated about 20 km away from world famous heritage site Khajuraho. The waterfall is also close to Panna Tiger Reserve and Ken crocodile sanctuary. It was awarded the Best Holiday Award for 2017. Tourists from all over the country and abroad come here every year to enjoy the natural beauty. The Ken River here runs through a narrow gorge of igneous rocks rich in Granite and Dolomite. The Pandav Falls in Panna National Park is also located nearby.

68. Correct Answer: D [1, 2 & 3]

Pandavkada Falls is a waterfall located Kharghar, a suburb of Navi Mumbai. The waterfall, about 107 metres high is a type of 'plunge' waterfall in nature pouring in massive amounts of water on the rocky surface underneath. The Raneh Falls is a natural waterfall on the Ken River, located in Chhatarpur district in the Indian State of Madhya Pradesh. The Duduma waterfall is 175 metres high waterfall located in koraput district of Odisha

70. Correct Answer: D [None]

Rani Jhansi Marine National Park is located in the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal. It was founded in 1996, and covers 256.14 km². Balpakram National Park is a national park ranging from under 200 to over 800 meters above sea level, near the Garo Hills in Meghalaya. Valley of Flowers National Park is located in Uttarakhand.

71. Correct Answer: D [Neither 1 nor 2]

First statement is incorrect because as per the India State of Forest Report (ISFR) 2017, the Forest and Tree Cover of the country has increased by 8,021 sq km (1 %) as compared to assessment of 2015. Second statement is incorrect because as per the report, maximum forest cover has increased in Andhra Pradesh. The report reveals that initiatives like Green India Mission, National Agro-Forestry Policy (NAFP), Green India Mission, National Agro-Forestry policy (NAP), REDD plus policy, Joint Forest Management (JFM), National Afforestation Programme and funds under Compensatory Afforestation to States are responsible for such good results. As per the report, the maximum forest cover has increased in Andhra Pradesh (2,141 sq kms), Karnataka (1,101 sq kms), Kerala (1,043 sq kms), Odisha (885 sq kms) and Telangana (565 sq kms). Top five states where forest cover has decreased are Mizoram (531 sq km), Nagaland (450 sq

km), Arunachal Pradesh (190 sq km), Tripura (164 sq km) and Meghalaya (116 sq km).

72. Correct Answer: B [Israel]

India's first private sector small arms manufacturing plant has been opened at Malanpur, Madhya Pradesh. It is a joint venture between Indian defence conglomerate Punj Lloyd and Israel Weapons Industries (IWI). The joint venture plans to develop it as a hub for providing weapons to Israel and Indian but to the world markets.

74. Correct Answer: A [1 & 3 Only]

Bansagar is a multipurpose river valley project on river Sone in Madhya Pradesh. It envisages on both irrigation and hydroelectric power generation. The Project is being executed by the Water Resource Department, Government of Madhya Pradesh under the direction of Bansagar Control Board. The party States to the project are Bihar, Madhya Pradesh & Uttar Pradesh. The Rajghat Dam has been constructed across River Betwa to provide Irrigation facilities to 1.38 lakh ha in Uttar Pradesh and 1.21 lakh ha in Madhya Pradesh with power generation of 45 MW through Rajghat Hydro Electric Project at the toe of the dam on the left flank. Mayurakshi River is a major river in West Bengal. Mayurakshi project is shared between Jharkhand and West Bengal.

75. Correct Answer: A [1 & 2 Only]

World Bank has approved the funding for the Ecosystem Services Improvement Project. This project aims to improve forest quality, land management and non-timber forest produce (NTFP) such as nuts, mushrooms, and game animals to benefit forest-dependent communities. The project is being implemented in areas of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

76. Correct Answer: A [ADB]

The Government of India has signed a

\$375 million loan agreement with the Asian Development Bank (ADB) for Madhya Pradesh Irrigation Efficiency Improvement Project (MPIEIP). The aim of the pact is to double farming incomes in Madhya Pradesh by expanding irrigation networks and system efficiency. The project will focus on two large irrigation systems: Kundalia irrigation project & Sanjay Sarovar Irrigation Project. It will develop 125,000 hectares of new, highly efficient and climate resilient irrigation networks, and improve water use efficiency in more than 400 villages, which will benefit over 800,000 people across the state. The project will also help farmers to adopt micro-irrigated agriculture including high-value crops.
 77. Correct Answer: D [Jabalpur]

Recently, Justice Sanjay Kumar Seth has been sworn in as the 24th Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court at Raj Bhavan. State Governor Anandi Ben Patel administered the oath of office to Justice Seth in a ceremony. He is slated to retire in June 2019. The principal seat of the high court is Jabalpur. It was established on 1 November 1956. The court is housed in an impressive building constructed by Raja Gokul Das in 1899. The building was designed by Henry Irwin in 1886. The court has a sanctioned judge strength of 53.

78. Correct Answer: B [Kuno Wildlife Sanctuary]

The Madhya Pradesh government has declared the Kuno Wildlife Sanctuary (KWS) as National Park in compliance with the last condition imposed by a Supreme Court-appointed committee for the much awaited 'translocation of Asiatic lions from Gir in Gujarat'. The move is expected to pave way for translocation of lions from Gir National Park (GNP) in Gujarat to Kuno. The Palpur-Kuno Wildlife Sanctuary is located in Sheopur district of Gwalior division & has been chosen as a second home for over 500

Asiatic lions. It is spread over 750 sq km area.

79. Correct Answer: D [Namdev Tyagi]

The Congress government in Madhya Pradesh has appointed self-styled godman Namdev Tyagi to the post of the chairperson of the 'Ma Narmada, Ma Kshipraevam Ma Mandakini River Trust'. He is popularly known as "Computer Baba". Notably, Tyagi was accorded minister of state (MoS) status by the previous BJP-led government in April 2018. However, he resigned in October 2018, claiming that the government was anti-religion and not fulfilling the promise of stopping illegal sand mining in the river Narmada.

80. Correct Answer: B [Agar Malwa]

India's first cow sanctuary – Kamdhenu Gau Abhyaranya – is located in the Agar Malwa district of Madhya Pradesh. It is in news recently because the Congress-led government has decided to privatized the cow sanctuary due to financial crises. Around 4,000 cows are living in the sanctuary which is spread across 472 hectares. The sanctuary was developed by the MP Gau Samvardhan Board at a cost of Rs 32 crore.

81. Correct Answer: A [Indore]

In Madhya Pradesh, Air India has recently launched the state's first international flight from Indore to Dubai from Devi Ahilyabai Holkar International Airport. The non-stop flight AI903 has fulfilled a long-standing desire from the travel fraternity and tourists for direct connectivity to the Gulf. From Indore, Air India is operating a 162-seater A320 Neo aircraft which will fly three times a week — Mondays, Wednesdays and Saturdays — non-stop to Dubai. Indore born Sunish Kumar Bhargava was the commander of this first-ever international flight from his home city. The aircraft will fly directly to Dubai on Monday, Wednesday and Saturday while the return leg from Dubai

will be on Tuesday, Friday and Sunday. It will have very attractive fares starting from Rs. 18,700 (return fare) and the return fare for the business class will be Rs. 42,000
 82. Correct Answer: C [\$525-million]

The New Development Bank (NDB) of the BRICS countries has approved a \$525-million loan to Madhya Pradesh for infrastructure projects. The loan will be used by the Indian government for on-lending to the Madhya Pradesh government for rehabilitating major district roads with a total length of about 2,000 km to improve the connectivity of the rural interior with the national and state highway networks. The project will improve the road conditions and enhance the transport capacity, which will lead to a less travel time, reduced vehicle-operating cost, reduced emissions and improved road safety. The NDB will also provide a \$ 175-million loan to the Madhya Pradesh Bridges Project, under which 350 bridges will be built or upgraded. The NDB was set up by the BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) nations to promote green and infrastructure projects in the member countries.

83. Correct Answer: B [Only 2]

The power to declare a tiger as man eater is vested with chief wildlife conservator of the state. Hence statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. Only when the attack is confirmed as deliberate one and there are instances of more than 1 deliberate attacks the tiger can be declared as Man eater.

The habitat of the Avni tiger is Yavatmal forest range. But it is located in Maharashtra not Madhya Pradesh. Hence statement 3 is wrong.

84. Correct Answer: C [Harda]

In Madhya Pradesh, women will handle the entire work of counting votes in Harda district of the state. As per reports, the initiative is probably the first of its kind. Harda district is a part of Betul

parliamentary seat and the counting of votes of Timarni and Harda assembly segments will take place at Harda district headquarter. At present, 84 women are being trained for counting in Polytechnic College. Apart from the counting of votes, only women will be deployed for the security of the counting centre. Betul was voted on 6 May and the women had taken the responsibilities of voting in 60 all women polling booths in Harda district. Now they are ready to take accountability of counting on 28 tables. More than 75 percent of voting has been recorded in Harda district, so the number of votes is also high

85. Correct Answer: B [Orchha]

The architectural heritage of Orchha town in Madhya Pradesh has been included in UNESCO's tentative list of world heritage sites following a proposal sent by the Archaeological Survey of India (ASI) to the U.N. body. According to the rules, to be a part of UNESCO's World Heritage sites, the heritage or any historical site first has to be on the tentative list. After it makes to the tentative list, another proposal is sent to the UNESCO. Orchha town is situated on the banks of the Betwa river in Niwari district of MP's Bundelkhand region. The town was built by King Rudra Pratap Singh of Bundela dynasty in the 16th century. The ancient town is famous for its Chaturbhuj Temple, Orchha fort complex, Raja Mahal among others. The Bundela architecture has Mughal influence since the two dynasties were very close. The famous King of Bundela dynasty Veer Singh Dev was a close friend of Mughal emperor Jahangir and fought wars as Akbar's aid.

86. Correct Answer: A [Indore]

In Madhya Pradesh, Air India has recently launched the state's first international flight from Indore to Dubai from Devi Ahilyabai Holkar International Airport. The non-stop flight AI903 has fulfilled a long-standing desire from the travel

fraternity and tourists for direct connectivity to the Gulf. From Indore, Air India is operating a 162-seater A320 Neo aircraft which will fly three times a week — Mondays, Wednesdays and Saturdays — non-stop to Dubai. Indore born Sunish Kumar Bhargava was the commander of this first-ever international flight from his home city. The aircraft will fly directly to Dubai on Monday, Wednesday and Saturday while the return leg from Dubai will be on Tuesday, Friday and Sunday. It will have very attractive fares starting from Rs. 18,700 (return fare) and the return fare for the business class will be Rs. 42,000.

87. Correct Answer: A [Katni]

In Madhya Pradesh, the Banjari village of Katni district has become an integral part of the digital map of the country. It is the first village in the state to be associated with the Prime Minister's ambitious project – Digital India. In line with Digital India campaign, the Union Ministry of Electronics and Information Technology (MEiTY) has envisaged the Digital Village Project. It has plans to build 1000 digital villages across the country. The digital village will not only help in providing connectivity in every village but it will also help in bridging the digital divide between rural and urban areas. This will also open new jobs and employment. Akodara village of Sabarkantha district of Gujarat is the first digital village in the country.

88. Correct Answer: A [I-B, II-A, III-D, IV-C]

Notes:

Gujarat is the foremost producer of cotton. Gram is produced in Madhya Pradesh, Black pepper is produced in Kerala and Pineapple is produced highest in West Bengal.

89. Correct Answer: B [None of the above]

Explanation:

Statement 1 is incorrect: NSA allows the centre and state

governments to hold a person for a period of 12 months. This is the maximum period for holding without charges. In presence of fresh evidence, the person can be held for longer. A person can be held for 10 days without informing the charges, under the NSA.

Statement 2 is incorrect:

The 1980 law is not the first of its kind. In colonial era, 1818 Bengal Regulation III acted as a preventive detention law. 1919 Rowlatt act provided for imprisonment without trial. After independence, 1950 Preventive Detention Act and 1971 Maintenance of Internal Security Act are precursors of the NSA

Statement 3 is incorrect:

The NSA provides for detention without filing an FIR. NCRB/ National Crime Records Bureau has data only about those cases with FIR. Information of NSA arrests is available from the 2001 law commission report- which says that 14 lakh people are imprisoned under preventive laws in India.

90. Correct Answer: B [Shivraj Singh Chauhan]

Senior leader of the Bharathiya Janata Party, Shivraj Singh Chauhan recently took oath as the Chief Minister of Madhya Pradesh for the fourth time.

The leader had ruled the state for nearly thirteen years, before Kamal Nath won in the assembly elections in December 2018. Now Kamal Nath has resigned after 22 rebel MLAs who were the supporters of Jyotiraditya Scindia, who recently joined BJP, resigned.

91. Correct Answer: C [Only 1, 2 & 3]

The 73rd Constitutional Amendment Act does not apply to the states of Nagaland, Meghalaya and Mizoram and certain other areas. The other areas include, (a) the scheduled areas and the tribal areas in the states; (b) the hill areas of Manipur for which district councils exist; and (c) Darjeeling district of West Bengal for

which Darjeeling Gorkha Hill Council exists

92. Correct Answer: D [1, 2, 3 & 4]

Baghelkhand is situated in Madhya Pradesh. Kuttanad is situated in Kerala. Rarh is situated in West Bengal. Saurashtra is situated in Gujarat.

93. Correct Answer: B [1, 2 & 3]

Dandakaranya lies in the state of Odisha, Chattisgarh, Andhra Pradesh. It is a type of undulating plateau.

94. Correct Answer: C [2, 1, 3, 4]

The correct descending order- Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh

95. Correct Answer: B [2, 3, 4, 1]

Correct descending order- Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand.

96. Correct Answer: D [1, 2, 3 & 4]

The correct pairs are Simlipal- Odisha, Kangchendzonga- Sikkim, Panna- Madhya Pradesh, Nilgiri- Tamil Nadu. Nilgiri biosphere reserve is also a part of the state of Kerala and Karnataka.

97. Correct Answer: D [1, 2, 3 & 4]

Bauxite- Orissa (The largest producer of bauxite), Mica- Andhra Pradesh (25%), Zinc- Rajasthan (88.6%), Copper- Madhya Pradesh.

98. Correct Answer: D [1, 2 & 3]

The correct pairs are Madhya Pradesh- Malanjkhanda, Rajasthan- Jhunjhunu, Jharkhand- Ghatsila.

99. Correct Answer: D [1, 2, 3 & 4]

Ukai (On river Tapi)- Gujarat, Satpura- Madhya Pradesh, Dabhol- Maharashtra, Patratu (On Nalkari river)- Jharkhand

100. Correct Answer: A [SVanidhiSamvaad]

Prime Minister of India Narendra Modi is set to hold a programme named 'SVanidhiSamvaad' with street vendors from Madhya Pradesh.

Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan will also participate in the program through video conferencing.

Prime Minister is to interact with three beneficiaries from the state through virtual mode. 4.5 lakh street vendors of Madhya Pradesh registered in the PM SVANidhi scheme.

स्पर्धीकरणकेसाथउत्तर

1. उत्तर: (बी) 1975

2. उत्तर: (डी) अनुच्छेद 315

3. उत्तर: (बी) 1993

4. उत्तर: (ए) स्वायत्तसार्वजनिकनिकाय

5. उत्तर: (ए) सुप्रीमकोर्टकेमुख्यन्यायाधीश

6. उत्तर: (सी) भारतकेप्रधानमंत्री

7. उत्तर: (डी) वीनरहरिराव

8. उत्तर: (सी) 22

9. उत्तर: (ए) लोकसभाअध्यक्ष

10. उत्तर: (सी) झारखंड

11. उत्तर: (बी) राष्ट्रपति

12. उत्तर: (सी) नीलमसंजीवरेड्डी

13. उत्तर: (सी) 1975

14. उत्तर: (बी) इंदिरागांधी

15. उत्तर: (डी) 352

16.उत्तर: (बी) पीवीनरसिम्हाराव

व्याख्या:

17.उत्तर: (बी) अनुच्छेद21

भारतीयसंविधानमें11वींअनुसूचीजोड़ीगईथी.

18.उत्तर: (डी) अनुच्छेद368

30.उत्तरग

19.उत्तर: (डी) 18

व्याख्या:

20.उत्तर: (सी) आयरलैंड

इसकीशक्तियांराज्यविधानमंडलद्वारानिर्धारितकीगईहैं

21.उत्तर: (डी) नागालैंड

.

22.उत्तर: (ए) योजनाआयोग

31.उत्तरसी

23.उत्तरबी

व्याख्या:

व्याख्या:

पंचायतीराजसंस्थाओंकाचुनावराज्यचुनावआयोगके

बलवंतरायमेहतासमितिभारतमेंपंचायतीराजव्यवस्था

मार्गदर्शनमेंहोताहै.

केलिएबनाईगईथी;

32.उत्तरa

जिसने1957मेंअपनीरिपोर्टप्रस्तुतकी।

व्याख्या: एकतिहाईपद

२४.उत्तरC

(सदस्यऔरमुखियादोनोंकेलिए)

व्याख्या:

महिलाओंकेलिएआरक्षितहैं.

त्रिस्तरीयप्रणालीकीव्यवस्थाकीजातीहैअर्थात्ग्रामपं

33Ans : C

चायत, पंचायतसमितिऔरजिलापरिषद.

25.उत्तरa

34Ans : C

व्याख्या:

ग्रामपंचायतकीस्थापनाप्रत्यक्षचुनावकेआधारपरकी

35Ans : C

जातीहै.

36Ans : C

26.उत्तरबी

व्याख्या:

37Ans : D

सबसेपहलेराजस्थानमेंपंचायतीराजव्यवस्थाकीस्थाप

नाहुई (2अक्टूबर1959)

38Ans : D

जिसकेबादआंध्रप्रदेशनेइसप्रणालीकोअपनाया।

27.उत्तरa

39Ans : C

व्याख्या: अनुच्छेद243

28.उत्तरसी

40Ans : A

व्याख्या:

41Ans : C

जनताकोराजनीतिसेजोड़नेकेलिएसत्ताकाविकेंद्रीकर

ण

42Ans : B

29.उत्तरडी

43Ans : A

44Ans : B

45Ans : C

46Ans : A

47Ans : A

48.उत्तर: बी

व्याख्या:

लिंगानुपातका अर्थप्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत का लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है।

49.उत्तर: a

व्याख्या: शिशु मृत्यु दर (IMR)

एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है।

50. उत्तर: c

व्याख्या: बाल लिंग अनुपात को मानव जनसंख्या में 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 919 है, जो 2001 की जनगणना में 927 था।

51.उत्तर: बी

व्याख्या: अरुणाचल प्रदेश (972)

में भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात है।

केरल का लिंगानुपात सिर्फ 964 है।

52.उत्तर: बी

व्याख्या: मातृ मृत्यु दर (एमएमआर)

गर्भावस्था या उसके प्रबंधन

(आकस्मिक या आकस्मिक कारणों को छोड़कर)

से संबंधित किसी भी कारण से प्रति 100,000 जीवित जन्मों में महिला मृत्यु की वार्षिक संख्या है। इसकी गणना के लिए,

मृत्यु की संख्या के कारण शिशु जन्म को शिशु जन्मों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है

53.उत्तर: डी

व्याख्या:

केरल < तमिलनाडु < आंध्र प्रदेश < छत्तीसगढ़। भारतीय राज्यों में लिंगानुपात नीचे दिया गया है;

केरल में लिंगानुपात: 1084

तमिलनाडु में लिंगानुपात: 995

आंध्र प्रदेश में लिंगानुपात: 992

छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात: 991

54.उत्तर: सी

व्याख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार,

भारत में कुल प्रजनन दर (TFR)

2.4 थी जो वर्ष 2016 में घटकर 2.3 होगी है।

भारत सरकार का उद्देश्य इसे घटाकर 2.1 करना है।

55.उत्तर: डी

व्याख्या: भारत में सबसे कम "कुल प्रजनन दर"

(TFR) जैन धर्म में है। जैन धर्म के लोगों की

"कुल प्रजनन दर" 1.2 है, जो भारत की

"कुल प्रजनन दर" 2.3 से काफी कम है।

56.उत्तर: बी

व्याख्या:

2016 के नीति आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार

, भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 34

थी। इसका मतलब है कि अगर भारत में एक साल में 100

0 बच्चे पैदा होते हैं,

तोउनमेंसे34कीमौतएकसालकीउम्रसेपहलेहोजातीहै
 ।

57. उत्तर: c

व्याख्या:

भारतमेंसबसेकमशिशुमृत्युदरवालाराज्यगोवाहै,
 जहांशिशुमृत्युदरकेवल8हैऔरमध्यप्रदेशमेंशिशुमृत्यु
 दरसबसेअधिकहैयानी47/1000

59. सहीउत्तर: सी [मंडला]

प्रधानमंत्रीनेद्रमोदीने2018

केराष्ट्रीयपंचायतीराजदिवसकेअवसरपरमध्यप्रदेशके
 मंडलाजिलेकेरामनगरमेंराष्ट्रीयग्रामस्वराजअभियान
 कीशुरुआतकी।इसयोजनाकाउद्देश्यदेशकीपंचायतीरा
 जव्यवस्थाकोमजबूतकरनाऔरइसकीसफलतामेंबाध
 कमहत्वपूर्णकमियोंकोदूरकरनाहै।यहयोजनाई-
 पंचायतमिशनमोडपरियोजनाकेतहतप्रशिक्षण,
 बुनियादीढांचेकेनिर्माणऔरई-
 गवर्नेंसकेलिएपहलकरनेपरकेंद्रितहै।श्रीमोदीनेमनेरीमेंइं
 डियनऑयलकॉरपोरेशनकेएलपीजीबीऑटोलिंगप्लांट
 कीआधारशिलारखनेकेलिएएकपट्टिकाकाभीअनावर
 णकिया।उन्होंनेप्राचीनजनजातीयसंस्कृतिऔरविरासत
 केसंरक्षणपर3
 दिवसीयकार्यक्रमआदिमहोत्सवकाभीउद्घाटनकिया।
 प्रधानमंत्रीनेराज्यमेंआदिवासीक्षेत्रोंकेविकासकेलिए
 करोडमैपकाभीअनावरणकिया।

60. सहीउत्तर: ए [भारतीयराष्ट्रीयकांग्रेस]

मध्यप्रदेशकेपूर्वमंत्रीऔरवरिष्ठकांग्रेसनेताडॉनिर्मलही
 रावत (74) का9मई,
 2018कोबालाघाटजिलेकेकटंगीशहरमेंनिधनहोग
 या।कांग्रेसनेता,
 जोस्थानीयनिवासियोंकेबीचएकडॉक्टरकेरूपमेंप्रसिद्ध
 थे,
 थेकटंगीकोतहसीलकादरजादिलानेमेंअहमभूमिकानि

भाईवहपूर्वमुख्यमंत्रीश्यामाचरणशुक्लकीकैबिनेटके
 सदस्यथे।

61. सहीउत्तर: बी [मंदसौर]

मध्यप्रदेशसरकारनेमंदसौरजिलेकेसुवासरामेंराज्यद्वारा
 संचालितबिजलीकंपनीनेशनलथर्मलपावरकॉरपोरेश
 नलिमिटेड (NTPC)

के250मेगावाटकेसौरऊर्जासंयंत्रकाउद्घाटनकियाहै।
 यहपरियोजनामुख्यरूपसेगैर-

कृषिभूमिपरस्थापितकीगईहैऔरलगभग1,500करो
 डरुपयेकेनिवेशपरशून्यकार्बनउत्सर्जनकेसाथप्राकृति
 कपारिस्थितिकीतंत्रकोप्रभावितकिएबिनाबिजलीउ
 त्पादनहासिलकियागयाहै।यहमेकइनइंडियापहलकेत
 हतघरेलूरूपसेनिर्मितसौरकोशिकाओंऔरमॉड्यूलका
 उपयोगकरकेविकसितकिएएसबसेबड़ेसौरसंयंत्रोंमेंसे
 एकहै।परियोजनाकोजून2017मेंचालूकियागयाहैऔ
 रएकमात्रलाभार्थीमध्यप्रदेशमेंखपतकेलिएउत्पादित
 बिजलीकीआपूर्तिकीजारहीहै

62. सहीउत्तर: सी [केवल1और3]

राज्योंद्वाराएसटीआबादी,
 मध्यप्रदेश 14.7% केसाथपहलेस्थानपरहै,
 इसकेबादमहाराष्ट्र (10.1%), ओडिशा
 (9.2%), राजस्थान (8.9%), गुजरात
 (8.6%), झारखंड (8.3%), छत्तीसगढ़
 (7.5%) है, आंध्रप्रदेश (5.7%),
 पश्चिमबंगाल (5.1%), कर्नाटक (4.1%),
 असम (3.7%), मेघालय (2.5%),
 औरशेषराज्यआदिवासीआबादीका11.6%प्रतिनि
 धित्वकरतेहैं।ग्रामीणक्षेत्रोंमेंअनुसूचितजनजातिकीजन
 संख्याकाअनुपात11.3% औरशहरीक्षेत्रोंमें2.8%
 है।अनुसूचितजनजातिकीआधीसेअधिकआबादीम
 ध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा,
 झारखंडऔरगुजरातराज्योंमेंकेंद्रितहै। (XAXA
 समितिकीरिपोर्ट)

63. सहीउत्तर: डी [1, 2और3]

निम्नलिखितग्राफिक्समेंनेइकोनॉमिकटाइम्ससेलिहैं

64. सहीउत्तर: सी [1और2दोनों]

भारतकेकपासकालगभग65% वर्षासिंचितक्षेत्रोंमें और35% सिंचितभूमिपरहोताहै।भारतमेंकपासकाउत्पादनतीनक्षेत्रोंमेंहोताहै, उत्तरीक्षेत्रजिसमेंपंजाब, हरियाणाऔरराजस्थानराज्यशामिलहैं, मध्यक्षेत्रजिसमेंमहाराष्ट्र, मध्यप्रदेशऔरगुजरातराज्यशामिलहैंऔरदक्षिणीक्षेत्र जिसमेंआंध्रप्रदेश, कर्नाटकऔरतमिलनाडुराज्यशामिलहैं।इननौराज्योंके अलावा, पूर्वीराज्यउड़ीसामेंकपासकीखेतीनेगतिपकड़ीहै

65. सहीउत्तर: बी [\$ 210मिलियन]

24अप्रैलको, भारतसरकार (भारतसरकार), मध्यप्रदेशसरकारऔरविश्वबैंकनेमध्यप्रदेशग्रामीणकनेक्टिविटीपरियोजनाकेलिए210मिलियनडॉलरकेऋणसमझौतेपरहस्ताक्षरकिएहैं।इसपरियोजनासेग्रामीणसड़कोंकेस्थायित्व, लचीलापनऔरसुरक्षामेंसुधारकीउम्मीदहैऔरइसकेग्रामीणसड़कोंकेनेटवर्ककाप्रबंधनकरनेकेलिएराज्यकीक्षमतामेंवृद्धिहोगी।यहपरियोजनामध्यप्रदेशमेंग्रामीणसड़कोंके10,510किलोमीटरहिस्सेकोकवरकरेगीजोमुख्यमंत्रीग्रामसड़कयोजना (CMGSY) कार्यक्रमकेतहतआतीहै।इसमेंसे 10,000किमीकोमौजूदाबजरीसेबिटुमिनससतहसड़कोंमेंअपग्रेडकियाजाएगा, जबकि510किमीनईसड़कोंकोउसीबिटुमिनससतहमानकपरबनायाजाएगा।

66. सहीउत्तर: ए [राजगढ़]

23जूनको,

प्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीनेमध्यप्रदेशकेराजगढ़जिलेमेंमोहनपुरासिंचाईपरियोजनाकाशुभारंभकिया।3,866करोडरुपयेकीपरियोजनामेंएकबांधऔरएकनहरप्रणालीशामिलहै।इसपरियोजनासेराजगढ़जिलेमेंकृषिभूमिकीसिंचाईकीसुविधाहोगी।इससेक्षेत्रकेगांवोंकोपीनेकापानीभीउपलब्धहोगा।इससेराज्यके727गांवोंकोलाभहोगाऔर1.25लाखहेक्टेयरभूमिकीसिंचाईहोगी।

67. सहीउत्तर: सी [केन]

रानेहजलप्रपातमध्यप्रदेशकेछतरपुरजिलेमेंकेननदीपरस्थितएकप्राकृतिकजलप्रपातहै।यहविश्वप्रसिद्धधरोहरस्थलखजुराहोसेलगभग20किमीदूरस्थितहै।झरनापन्नाटाइगररिजर्वऔरकेनमगरमच्छअभयारण्यकेकरीबभीहै।इसे2017केलिएबेस्टहॉलिडेअवार्डसेसम्मानितकियागयाथा।देश-विदेशसेपर्यटकहरसालयहांप्राकृतिकसुंदरताकाआनंदलेनेआतेहैं।यहांकेननदीग्रेनाइटऔरडोलोमाइटसेभरपूरआग्नेयचट्टानोंकीएकसंकरीघाटीसेहोकरगुजरतीहै।पन्नाराष्ट्रीयउद्यानमेंपांडवजलप्रपातभीपासमेंहीस्थितहै।

68. सहीउत्तर: डी [1, 2और3]

पांडवकाडाजलप्रपातनवीमुंबईकेउपनगरखारघरमेंस्थितएकजलप्रपातहै।लगभग107मीटरऊंचाजलप्रपातप्रकृतिमेंएकप्रकारका'डुबकी'जलप्रपातहैजोनीचेकीचट्टानीसतहपरभारीमात्रामेंपानीडालताहै।रानेहजलप्रपातभारतीयराज्यमध्यप्रदेशमेंछतरपुरजिलेमेंस्थितकेननदीपरस्थितएकप्राकृतिकजलप्रपातहै।दुदुमाजलप्रपातओडिशाकेकोरापुटजिलेमेंस्थित175मीटरऊंचाजलप्रपातहै

70. सहीउत्तर: डी [कोईनहीं]

रानीझांसीसमुद्रीराष्ट्रीयउद्यानबंगालकीखाड़ीमेंअंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूहमेंस्थितहै।यह1996मेंस्थापितकियागयाथा, और256.14 किमी²

कोकवर करता है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में गोरोपहाड़ियों के पास समुद्र तल से 200 से 800 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है।

71. सही उत्तर: डी [नतो 1 और नही 2]

पहला कथन गलत है क्योंकि भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2017 के अनुसार, 2015 के आकलन की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में 8,021 वर्ग किमी (1%) की वृद्धि हुई है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन आवरण में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति (एनएफपी), हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति (एनएपी), आरईडीडी प्लस नीति, संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और प्रतिपूरक के तहत धन जैसी पहल एसे अच्छे परिणामों के लिए राज्यों पर वनरोपण जिम्मेदार है। रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश (2,141 वर्ग किलोमीटर), कर्नाटक (1,101 वर्ग किलोमीटर), केरल (1,043 वर्ग किलोमीटर), ओडिशा (885 वर्ग किलोमीटर) और तेलंगाना (565 वर्ग किलोमीटर) में अधिकतम वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। शीर्ष पांच राज्य जहां वन क्षेत्र में कमी आई है, वे हैं मिजोरम (531 वर्ग किमी), नागालैंड (450 वर्ग किमी), अरुणाचल प्रदेश (190 वर्ग किमी), त्रिपुरा (164 वर्ग किमी) और मेघालय (116 वर्ग किमी)।

72. सही उत्तर: बी [इजराइल]

भारत का पहला निजी क्षेत्र कालघुथियार निर्माण संयंत्र मध्य प्रदेश के मालनपुर में खोला गया है। यह भारतीय रक्षासमूह पुंज लॉयड और इजराइल वेपेन्स इंडस्ट्रीज (IWI) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम की योजना इसेज रायल और भारतीय कोहथियार उपलब्ध कराने के लिए एक हब के रूप में विकसित करने की है, लेकिन विश्व बाजारों में।

74. सही उत्तर: ए [केवल 1 और 3]

बाणसागर मध्य प्रदेश में सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसमें सिंचाई और जल विद्युत बिजली उत्पादन दोनों की परिकल्पना की गई है। परियोजना का क्रियान्वयन बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के निर्देशन में जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के पक्षकार राज्य बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। राजघाट बांध का निर्माण बेतवान दी पर उत्तर प्रदेश में 1.38 लाख हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 1.21 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है, जिसमें राजघाट जल विद्युत परियोजना के माध्यम से बाणसागर किनारे पर बांध के निचले हिस्से में 45 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नदी है। मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच साझा की जाती है।

75. सही उत्तर: ए [केवल 1 और 2]

विश्व बैंक ने पारिस्थितिकी तंत्र से वासुधार परियोजना के लिए वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य वन-निर्भर समुदायों को लाभान्वित करने के लिए वनगुणवत्ता, भूमि प्रबंधन और गैर-लकड़ी वन उपज (एनटीएफपी) जैसे नट,

मशरूम और खेलजानवरों में सुधार करना है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में लागू की जा रही है।

76. सही उत्तर: ए [एडीबी]

भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना (MPIEIP) के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB)

के साथ \$375 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य मध्य प्रदेश में सिंचाई नेटवर्क और सिस्टम दक्षता का विस्तार करके कृषि आय को दोगुना करना है। यह परियोजना दो बड़ी सिंचाई प्रणालियों पर केंद्रित होगी:

कुंडलिया सिंचाई परियोजना और संजय सरोवर सिंचाई परियोजना। यह 125,000 हेक्टेयर के लिए, अत्यधिक कुशल और जलवायु लचीला सिंचाई नेटवर्क विकसित करेगा,

और 400 से अधिक गांवों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करेगा,

जिससे राज्य भर में 800,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा। यह परियोजना किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों सहित सूक्ष्म सिंचित कृषि को अपनाने में भी मदद करेगी।

77. सही उत्तर: डी [जबलपुर]

हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार सेठ ने राजभवन में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्य की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने एक समारोह में न्यायमूर्ति सेठ को पद की शपथ दिलाई। वह जून 2019 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट जबलपुर है। यह 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया था। अदालत 1899 में राजा गोकुलदास द्वारा निर्मित एक प्रभावशाली इमारत में स्थित है। इस इमारत को 1886 में हेनरी इरविन द्वारा डिजाइन किया गया था। अदालत में 53 की स्वीकृत न्यायाधीश शक्ति है।

78. सही उत्तर: बी [कुनोवन्य जीव अभयारण्य]

मध्य प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित 'गुजरात में गिर से एशियाई शेरों के स्थानांतरण'

के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा लागू की गई अंतिम शर्त के अनुपालन में कुनोवन्य जीव अभयारण्य (केडब्ल्यूएस)

को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इस कदम से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान (जीएनपी)

से कुनोवन्य शेरों के स्थानांतरण का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। पालपुर-

कुनोवन्य जीव अभयारण्य ग्वालियर संभाग के श्योपुर जिले में स्थित है और इसे 500 से अधिक एशियाई शेरों के लिए एडुसेरघर के रूप में चुना गया है। यह 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

79. सही उत्तर: डी [नाम देवत्यागी]

मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने स्वयंभू संत नाम देवत्यागी को 'माँनर्मदा, माँक्षिप्रा और माँमंदाकिनी नदी ट्रस्ट' के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। उन्हें लोकप्रिय रूप से "कंप्यूटर बाबा" के रूप में जाना जाता है। विशेष रूप से, त्यागी को अप्रैल 2018

में पिछली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य मंत्री

(MoS) का दर्जा दिया गया था। हालांकि,

उन्होंने अक्टूबर 2018 में इस्तीफा दे दिया,

यह दावा करते हुए कि सरकार धर्म विरोधी थी और अवैध रूप से तकोरोकने के वादे को पूरा नहीं कर रही थी।

81. सही उत्तर: ए [इंदौर]

मध्य प्रदेश में,

एयर इंडियाने हाल ही में देवी अहिल्या बाई होल्कर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंदौर से दुबई के लिए एराज्य की पहली

अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू की है। नॉन-

स्टॉप उड़ान AI903 ने खाड़ी से सीधे संपर्क के लिए एरात्रा

बिरादरी और पर्यटकों की एकलंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा किया है। इंदौर से, एयर इंडिया 162 सीटों वाले A320 नियोजित विमान का संचालन कर रही है जो सप्ताह में तीन बार - सोमवार, बुधवार और शनिवार - बिना रुके दुबई के लिए उड़ान भरेगा। इंदौर में जन्मे सुनील कुमार भार्गव अपने गृह शहर से इस पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान के कमान्डर थो विमान सोमवार, बुधवार और शनिवार को सीधे दुबई के लिए उड़ान भरेगा जबकि दुबई से वापसी चरण मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को होगा। इसके बहुत ही आकर्षक किराए होंगे, जो रुपये में 18,700

(वापसी का किराया) और बिजनेस क्लास के लिए वापसी का किराया रुपये होगा 142,000

82. सही उत्तर: सी [\$525 मिलियन]

ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने मध्य प्रदेश को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 525 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग नेटवर्क के साथ ग्रामीण आंतरिक की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए लगभग 2,000 किमी की कुल लंबाई के साथ प्रमुख जिला सड़कों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को ऋण देने के लिए भारत सरकार द्वारा ऋण का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना से सड़क की स्थिति में सुधार होगा और परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा, वाहन संचालन लागत कम होगी, उत्सर्जन कम होगा और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। एनडीबी मध्य प्रदेश पुल परियोजना के लिए 175 मिलियन डॉलर का ऋण भी प्रदान करेगा, जिसके तहत 350 पुलों का निर्माण या उन्नयन किया जाएगा। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका)

देशों द्वारा सदस्य देशों में हरित और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

83. सही उत्तर: बी [केवल 2]

बाघ को आदम खोर घोषित करने की शक्ति राज्य के मुख्य न्यजीव संरक्षक के पास है। अतः कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है। केवल जब हम लेकी पुष्टि जान बूझ कर की जाती है और 1 से अधिक जान बूझ कर हम लेते हैं, तो बाघ को आदम खोर घोषित किया जा सकता है। अतः कथन 3 गलत है।

84. सही उत्तर: सी [हरदा]

मध्य प्रदेश में राज्य के हरदा जिले में वोटों की गिनती का सारा काम महिलाएं संभालेंगी। रिपोर्टों के अनुसार, पहल शायद अपनी तरफ ही पहली है। हरदा जिला बैतूल संसदीय सीट का हिस्सा है और तिमरनी और हरदा विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हरदा जिला मुख्यालय में होगी। पॉलिटिकल कॉलेज में फिलहाल 84 महिलाओं को मतगणना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतगणना के अलावा मतगणना केंद्र की सुरक्षा के लिए सिर्फ महिलाओं को ही तैनात किया जाएगा। बैतूल में 6 मई को मतदान हुआ था और हरदा जिले के 60 सभ्य महिला मतदान केंद्रों पर महिलाओं ने मतदान की जिम्मेदारी ली थी।

अब वे 28 टेबल पर मतगणना की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हरदा जिले में 75 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया है, इसलिए वोटों की संख्या भी अधिक है

85. सही उत्तर: बी [ओरछा]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई) द्वारा संयुक्त राष्ट्र निकाय को भेजे गए प्रस्ताव के बाद मध्य प्रदेश के ओरछा शहर की स्थापत्य विरासत को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया

याहैनियमोंकेअनुसार,
यूनेस्कोकीविश्वधरोहरस्थलोंकाहिस्साबननेकेलिए,
विरासतयाकिसीऐतिहासिकस्थलकोपहलेअस्थायीसू
चीमेंहोनाचाहिए।इसकेअस्थायीसूचीमेंआनेकेबाद,
एकऔरप्रस्तावयूनेस्कोकोभेजाजाताहै।ओरछाशहरम
ध्यप्रदेशकेबुंदेलखंडक्षेत्रकेनिवाड़ीजिलेमेंबेतवानदीके
तटपरस्थितहै।इसशहरकानिर्माणबुंदेलावंशकेराजारुद्र
प्रतापसिंहने16वींशताब्दीमेंकरवायाथा।प्राचीनशहर
अपनेचतुर्भुजमंदिर, ओरछाकिलापरिसर,
राजामहलसहितअन्यकेलिएप्रसिद्धहै।बुंदेलावास्तुक
लाकामुगलप्रभावहैक्योंकिदोनोराजवंशबहुतकरीबथे।
बुंदेलावंशकेप्रसिद्धराजावीरसिंहदेवमुगलसम्राटजहां
गीरकेकरीबीदोस्तथेऔरअकबरकीसहायताकेरूपमेंयु
द्धलड़ेथे।

86. सहीउत्तर: ए [इंदौर]

मध्यप्रदेशमें,
एयरइंडियानेहालहीमेंदेवीअहिल्याबाईहोल्करअंतररा
ष्ट्रीयहवाईअड्डेसेइंदौरसेदुबईकेलिएराज्यकीपहली
अंतरराष्ट्रीयउड़ानशुरूकीहै।नॉन-

स्टॉपउड़ानAI903

नेखाड़ीसेसीधेसंपर्ककेलिएयात्राबिरादरीऔरपर्यटकों
कीएकलंबेसमयसेचलीआरहीइच्छाकोपूराकियाहै।इं
दौरसे, एयरइंडिया162 सीटोंवालेA320

नियोविमानकासंचालनकररहीहैजोसप्ताहमेंतीनबार -

सोमवार, बुधवारऔरशनिवार -

बिनारुकेदुबईकेलिएउड़ानभरेगा।इंदौरमेंजन्मेसुनीलकु
मारभार्गवअपनेगृहशहरसेइसपहलीअंतरराष्ट्रीयउड़ान

केकमांडरथे।विमानसोमवार,

बुधवारऔरशनिवारकोसीधेदुबईकेलिएउड़ानभरेगाज

बकिदुबईसेवापसीचरणमंगलवार,

शुक्रवारऔरविवारकोहोगा।इसकेबहुतहीआकर्षक

किराएहोंगे, जोरुपयेसेशुरूहोतेहैं।18,700

(वापसीकाकिराया)

औरबिजनेसक्लासकेलिएवापसीकाकिरायारुपयेहोगा
।42,000.

87. सहीउत्तर: ए [कटनी]

मध्यप्रदेशमेंकटनीजिलेकाबंजारीगांवदेशकेडिजिटल
मैपकाअहमहिस्साबनगयाहै।

यहप्रधानमंत्रीकीमहत्वाकांक्षीपरियोजना-

डिजिटलइंडियासेजुड़ाराज्यकापहलागांवहै।डिजिटल
इंडियाअभियानकेअनुरूप,

केंद्रीयइलेक्ट्रॉनिक्सऔरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालय
(एमईआईटीवाई)

नेडिजिटलग्रामपरियोजनाकीपरिकल्पनाकीहै।इसकी

देशभरमें1000डिजिटलगांवबनानेकीयोजनाहै।डि

जिटलविलेजनकेवलहरगांवमेंकनेक्टिविटीप्रदानकरने

मेंमददकरेगाबलिकग्रामीणऔरशहरीक्षेत्रोंकेबीचडिजि

टलडिवाइडकोपाटनेमेंभीमददकरेगा।इससेनईनौकरि

यांऔररोजगारभीखुलेंगे।गुजरातकेसाबरकांठाजिले

काअकोदरागांवदेशकापहलाडिजिटलगांवहै।

88. सहीउत्तर: ए [आई-बी, II-ए, III-डी,
IV-सी]

टिप्पणियाँ:

गुजरातकपासकाप्रमुखउत्पादकहै।

मध्यप्रदेशमेंचनाकाउत्पादनहोताहै,

कालीमिर्चकाउत्पादनकेरलमेंहोताहैऔर

अनानासकाउत्पादनपश्चिमबंगालमेंसबसेज्यादाहोता
है।

89. सहीउत्तर: बी [उपरोक्तमेंसेकोईनहीं]

व्याख्या:

कथन1 गलतहै:

एनएसएकेड्र औरराज्यसरकारोंको12महीनेकीअवधि
केलिएएकव्यक्तिकोरखनेकीअनुमतिदेताहै।यहबिना

किसी शुल्क के धारण करने की अधिकतम अवधि है। ता
 जासबूतों की उपस्थिति में,
 व्यक्तिको अधिक समय तक रखा जा सकता है। एनएसएके
 तहत किसी व्यक्तिको आरोपों की जानकारी दिए बिना 10
 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है।

कथन 2 गलत है:

1980 का कानून अपनी तरफ का पहला कानून नहीं है।
 औपनिवेशिक युग में, 1818 बंगाल विनियमन III
 ने एक निवारक निरोध कानून के रूप में कार्य किया। 191
 9 रॉलेट एक्ट में बिना मुकदमे के कारावास का प्रावधान कि
 या गया। स्वतंत्रता के बाद,

१९५० निवारक निरोध अधिनियम और १९७१ आंतरि
 क सुरक्षा अधिनियम बनाए रखना एनएसएके पूर्ववर्ती हैं

कथन 3 गलत है:

एनएसएफआई आर दर्ज किए बिना नजरबंदी का प्रावधान
 न करता है। एनसीआरबी/राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के
 पास केवल उन मामलों का डेटा है जिनमें एफआईआर दर्ज
 है। एनएसएकी गिरफ्तारी की जानकारी 2001 के कानून
 आयोग की रिपोर्ट से उपलब्ध है-

जिसमें कहा गया है कि भारत में 14 लाख लोग निवारक कानू
 नों के तहत कैद हैं।

90. सही उत्तर: बी [शिवराज सिंह चौहान]

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने
 हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ
 ली।

दिसंबर 2018 में विधान सभा चुनाव में कमलनाथ के जी
 तने से पहले,

नेताने लगभग तेरह वर्षों तक राज्य पर शासन किया था। अ
 बकमलनाथ ने 22 बागी विधायकों के इस्तीफा दे दिया है,
 जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे,
 जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे।

91. सही उत्तर: सी [केवल 1, 2 और 3]

73 वां संविधान संशोधन अधिनियम नागालैंड,
 मेघालय और मिजोरम राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू
 नहीं होता है। अन्य क्षेत्रों में शामिल हैं, (ए)

राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र; (बी)

मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए जिला परिषदें मौजूद हैं;
 और (सी)

पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलि
 ग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है

92. सही उत्तर: डी [1, 2, 3 और 4]

बघेलखंड मध्य प्रदेश में स्थित है। कुट्टनाड केरल में स्थित है
 । Rarh पश्चिम बंगाल में स्थित है। सौराष्ट्र गुजरात में स्थि
 त है।

93. सही उत्तर: बी [1, 2 और 3]

दंडकारण्य ओडिशा, छत्तीसगढ़,
 आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक प्रकार का लहरदार प
 ठार है।

94. सही उत्तर: सी [2, 1, 3, 4]

सही अवरोही क्रम- राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
 उत्तर प्रदेश

95. सही उत्तर: बी [2, 3, 4, 1]

सही अवरोही क्रम- मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
 छत्तीसगढ़, झारखंड।

96. सही उत्तर: डी [1, 2, 3 और 4]

सही जोड़े सिमलीपाल-ओडिशा, कंचनजंगा-
 सिक्किम, पन्ना- मध्य प्रदेश, नीलगिरि-
 तमिलनाडु हैं। नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व भी केरल और
 कर्नाटक राज्य का एक हिस्सा है।

97. सही उत्तर: डी [1, 2, 3 और 4]

बॉक्साइट- उड़ीसा

(बॉक्साइटकासबसेबड़ाउत्पादक), अभ्रक-

आंध्रप्रदेश (25%), जिंक- राजस्थान

(88.6%), कॉपर- मध्यप्रदेश।

98. सहीउत्तर: डी [1, 2और3]

सहीजोड़ेमध्यप्रदेश- मलंजखंड, राजस्थान- झुंझुनू,

झारखंड- घाटशिलाहैं।

99. सहीउत्तर: डी [1, 2, 3और4]

उकाई (तापीनदीपर)- गुजरात, सतपुड़ा-

मध्यप्रदेश, दाभोल- महाराष्ट्र, पतरातू

(नलकारीनदीपर)- झारखंड

100. सहीउत्तर: ए [एसवनिधिसंवाद]

भारतकेप्रधानमंत्रीनरेद्रमोदीमध्यप्रदेशकेरेहड़ी-

पटरीवालोंनेसाथ'स्वनिधिसंवाद'

नामसेएककार्यक्रमआयोजितकरनेकेलिएतैयारहैं।

मध्यप्रदेशकेमुख्यमंत्रीशिवराजसिंहचौहानभीवीडियो

कॉन्फ्रेंसिंगकेजरिएकार्यक्रममेंशामिलहोंगे।

प्रधानमंत्रीवर्चुअलमोडकेजरिएराज्यकेतीनलाभार्थि

योंसेसंवादकरेंगे।मध्यप्रदेशके4.5 लाखरेहड़ी-

पटरीवालोंनेपीएमस्वनिधियोजनामेंपंजीकरणकराया।